प्रसारित क्षेत्र-बरेली, पीलीभीत, बदायूं, कासगंज, एटा, अलीगढ, संभल, श्रावस्ती, अलीगढ और उत्तराखंड

# इस बार टाइम, काउंटडाउन और रॉकेट भी हमारा, अंतरिक्ष

# यात्रियों के नामों का एलान कर

पीएम मोदी ने स्पेस सेक्टर को बढ़ावा देने वाली तीन महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन किया। केरल के बाद नरेंद्र मोदी दो दिवसीय यात्रा के लिए तमिलनाडु जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल के तिरुवनंतपुरम में पहुंचे हुए हैं। इस दौरान उन्होंने में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (VSSC) का दौरा किया। मौके पर मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, राज्य मंत्री मुरलीधरन और इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ भी मौजूद रहे। तीन महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन किया-पीएम मोदी ने स्पेस सेक्टर को बढ़ावा देने वाली तीन महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन

#### सक्षिप्त समाचा संभल से सपा सांसद शफीकुर्रहमान बर्कका निधन मुरादाबाद अस्पताल में ली अंतिम सांस

संभल के सांसद डॉ

शफीक्र्रहमान बर्क लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनका मरादाबाद के अस्पताल में उपचार चल रहा था। कुछ दिन पहले उनसे सपा नेता अखिलेश यादव ने मुलाकात की थी। संभल से सपा सांसद डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क का निधन हो गया है। वह लंबे समय से मुरादाबाद के निजी अस्पताल में भर्ती थे। एक माह पहले अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें मुरादाबाद के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कुछ दिनों से उनकी हालत में सुधार था। मंगलवार को अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद उन्होंने उन्होंने अंतिम सांस ली। चार बार विधायक रहने के बाद 2019 में पांचवीं बार संभल से सांसद चुने गए। उम्र और अनुभव में देश के सबसे वरिष्ठ राजनेता रहे। अपने सियासी तेवरों के कारण उनकी अलग पहचान रही है। वह बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के संयोजक रह चुके थे। मुस्लिमों के मुद्दों को उठाने और वंदेमातरम पर अपने बयानों को लेकर सियासत में चर्चित रहे डा. शफीकुर्रहमान बर्क सपा की सियासत में बड़ा चेहरा बनकर उभरे थे। उनका सियासी सफर 60 वर्ष से भी ज्यादा का था।वह 1967 में संभल विधानसभा से पहला चुनाव लड़े लेकिन कामयाब नहीं हो सके थे। उन्हें विधानसभा के चुनाव में पहली कामयाबी 1974 में मिली थी। वह

बीकेडी से विधायक चुने गए।

धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में PSLV एकीकरण सुविधा, महेंद्रगिरि के इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में नई सेमी-ऋायोजेनिक्स इंटीग्रेटेड इंजन और स्टेज टेस्ट सुविधा और VSSC तिरुवनंतपुरम में ट्राइसोनिक विंड टनल हैं। इन्हें तैयार करने में करीब 1800 करोड़ रुपये लागत आई है। अंतरिक्ष यात्रियों के नामों का एलान- पीएम ने गगनयान मिशन द्वारा अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों के नामों

किया। ये प्रोजेक्ट्स सतीश यात्री प्रशांत बालाकृष्णण नायर, अजीत कृष्णण, अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला हैं। पीएम ने अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस विंग दिया। बता दें, गगनयान मिशन भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है, जिसके लिए इसरो के विभिन्न केंद्रों में व्यापक तैयारियां चल रही हैं।भारत माता की जय के नारे लगाए-तिरुवनंतपुरम के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं चाहता हूं कि हर कोई हमारे साहसिक अंतरिक्ष यात्रियों के

लिए खड़े होकर तालियां बजाएं। तालियों के साथ ही पीएम ने भारत माता की जय के नारे लगाए। ये सिर्फ चार नाम और चार इंसान नहीं...उन्होंने कहा, हम सभी आज एक ऐतिहासिक सफर के साक्षी बन रहे हैं। अब से कुछ देर पहले देश पहली बार अपने चार गगनयान यात्रियों से परिचित हुआ। ये सिर्फ चार नाम और चार इंसान नहीं हैं, ये 140 करोड़ आकांक्षाओं को स्पेस में ले जाने वाली चार शक्तियां हैं। 40 वर्ष के बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाला है। लेकिन इस बार टाइम भी हमारा

राज्यसभा चुनाव के बीच

तीन इकोनॉमी बनने के लिए उड़ान भर रहा उन्होंने आगे कहा, मुझे ये

है, काउंटडाउन भी हमारा है और

भारत दुनिया की टॉप

रॉकेट भी हमारा है।

जानकर बहुत अच्छा लगा कि गगनयान में इस्तेमाल होने वाले ज्यादातर उपकरण 'Made in India' है। ये कितना बड़ा संयोग है कि जब भारत दुनिया की टॉप तीन इकोनॉमी बनने के लिए उड़ान भर रहा है, उसी समय भारत का गगनयान भी हमारे अंतरिक्ष सेक्टर को एक नई बुलंदी पर ले जाने वाला है।

#### महिला शक्ति को महत्व दिया जा रहा

पीएम मोदी ने कहा कि हमारे अंतरिक्ष सेक्टर में महिला शक्ति को बहुत महत्व दिया जा रहा है। चंद्रयान हो या गगनयान, महिला वैज्ञानिकों के बिना ऐसे किसी भी मिशन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी का भारत, विकसित होता हुआ भारत, आज दुनिया को अपने सामर्थ्य से चौंका रहा है। पिछले 10 वर्षों में हमने लगभग 400 सेटेलाइट लॉन्च

किए हैं, जबकि इससे पहले के 10 वर्षों में मात्र 33 सेटेलाइट लॉन्च किए गए थे।

#### 2035 तक होगा अंतरिक्ष अपना स्टेशन

पीएम मोदी ने कहा% 2035 तक अंतरिक्ष में भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा, जो हमें अंतरिक्ष के अज्ञात विस्तार का अध्ययन करने में मदद करेगा। अमृत काल की इस अवधि में, भारतीय अंतरिक्ष यात्री हमारे अपने रॉकेट के जरिए चंद्रमा की सतह पर उतरेंगे।

#### भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में नेतृत्व कर रहा

गगनयान मिशन पर केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्रदान किए गए पूर्ण समर्थन और संरक्षण के साथ, आज यह संभव है कि भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में नेतृत्व कर रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है जबकि गगनयान भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में ले जाने की तैयारी करता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दावा किया कि विपक्ष यह मान चुका

है कि वह इस साल होने वाले लोकसभा चनाव में जीत नहीं पाएगा और देश की प्रगति को लेकर उसके पास कोई खाका नहीं है इसलिए वह उन्हें भला-बुरा कहने की रणनीति अपना रहा है। पीएम मोदी ने सेंट्रल स्टेडियम में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की राज्य इकाई की पदयात्रा के समापन समारोह मेंअपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दावा किया कि विपक्ष यह मान चुका है कि वह इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव में जीत नहीं पाएगा और देश की प्रगति को लेकर उसके पास कोई खाका नहीं है इसलिए वह उन्हें भला-बुरा कहने की रणनीति अपना रहा है। कांग्रेस और इसके वामपंथी सहयोगियों की सिर्फ एक प्राथमिकता है और वो है अपने परिवार को बढ़ावा देना। इनके लिए परिवार का कल्याण भारतीयों के कल्याण से ज्यादा अहम है। हर कोई जानता है कि एलडीएफ और यूडीएफ ने केरल में शिक्षा व्यवस्था तैयार की है और राज्य के युवाओं को उच्च शिक्षा में कितनी परेशानी होती है, ये भी सभी जानते हैं। तीसरे कार्यकाल में हम केरल के शिक्षण संस्थानों

के विकास के लिए काम करेंगे, जिससे गरीबों और मध्यम वर्ग को मदद मिल सके। प्रधानमंत्री ने केरल के लोगों से आग्रह किया कि वे आगामी लोकसभा चुनावों में राज्य में उनकी पार्टी को दोहरे अंकों में सीट जिताकर अपना आशीर्वाद दें। उन्होंने कहा कि भाजपा कभी किसी राज्य को वोट बैंक के नजरिए से नहीं देखती। पिछले 10 साल में केरल को अन्य भाजपा शासित राज्यों की तरह ही विकास से लाभ हुआ है। उन्होंने कहा कि यह उनकी गारंटी है कि वह केरल के लोगों के सपनों और आकांक्षाओं को साकार करने के लिए हरसंभव प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के साथ-साथ देश से गरीबी और भ्रष्टाचार मिटाना %मोदी की गारंटी% है। पीएम मोदी ने कहा कि सहयोग नहीं मिलने के बावजूद केरल हमारी प्राथमिकता में है। केरल के 40 हजार किसानों को पीएम किसान योजना के तहत आर्थिक मदद मिली है। 50 लाख मुदा लोन केरल के युवाओं को बांटे गए हैं।

#### बाच मुख्यमत्रा य किया उम्मीदवारों का एलान मिले सपा के पांच विधायक, समर्थन का किया एलान

लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के साथ सीटों का समझौता होने के बाद आप ने मंगलवार को उम्मीदवारों के नाम का एलान कर दिया। पार्टी ने दिल्ली की चार और हरियाणा की एक सीट पर प्रत्याशी के नाम की घोषणा की है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के साथ सीटों का समझौता होने के बाद आम आदमी पार्टी ने मंगलवार को उम्मीदवारों के नाम का एलान

कर दिया। पार्टी ने दिल्ली की चार और हरियाणा की एक सीट पर प्रत्याशी के नाम की घोषणा की है। दिल्ली की चार सीटों पर ये हैं उम्मीदवार पूर्वी दिल्ली से कुलदीप कुमार नई दिल्ली से सोमनाथ भारती पश्चिमी दिल्ली से महाबल मिश्रा और दक्षिणी दिल्ली से सहीराम को उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा हरियाणा की कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर आम ने सुशील गुप्ता के नाम मुहर लगाई है। तीन विधायक लड़ेंगे लोकसभा चुनाव आप नेता और दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने पार्टी मुख्यालय से आगामी लोकसभा चुनाव के लिए

उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। इससे पहले इस में पीएसी (पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी ) की बैठक हुई। पार्टी ने बैठक खत्म होने के बाद ही दिल्ली और हरियाणा में उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी। दिल्ली में तीन मौजुदा विधायकों (सोमनाथ भारती, कुलदीप कुमार और सहीराम ) को टिकट मिला है। पंजाब में उम्मीदवारों के नामों का नहीं हुआ एलान- आप गुजरात की भरूच और भावनगर लोकसभा सीट पर पहले ही उम्मीदवार का एलान कर चुकी है। उम्मीद जताई जा रही थी सीएम केजरीवाल के आवास पर हुई इस बैठक के बाद पार्टी दिल्ली, हरियाणा के अलावा पंजाब में भी उम्मीदवारों का एलान कर देगी लेकिन अभी ऐसा नहीं हुआ। गठबंधन में आप के हिस्से आई हैं ये सीटें- आप दिल्ली में चार सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हरियाणा की कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट उसके हिस्से में आई है, जबकि पंजाब की सभी 13 सीटों पर वह चुनाव लड़ रही है। आप दिल्ली में दक्षिणी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली और नई दिल्ली सीट पर लड़ेगी।

समाजवादी पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा देने वाले मनोज पांडे के साथ तीन और विधायक बागी हो गए हैं। बताया जा रहा है कि कुल छह विधायकों ने भाजपा प्रत्याशी का समर्थन किया है। राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के बड़ा झटका लगा है। मनोज पांडेय के साथ ही उसके कई विधायक बागी हो गए हैं। सपा के विधायक मनोज पांडे ने मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को भेज दिया है। मनोज पांडेय ने भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में मतदान किया है। मतदान के पहले वह आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल के कक्ष में भी गए। बताया जा रहा है कि सपा के छह विधायकों ने भाजपा प्रत्याशी को वोट किया है। मतदान के दौरान सपा के पांच विधायकों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इनमें अभय सिंह, राकेश सिंह, राकेश पांडेय, विनोद चतुर्वेदी और मनोज पांडेय शामिल रहे। बाद में सपा विधायक आशुतोष मौर्य ने भी भाजपा प्रत्याशी को वोट देने का एलान किया है।

इसके पहले, सपा के विधायक

मनोज पांडे ने पत्र में सपा के



राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को लिखा कि मैं मुख्य सचेतक के पद से इस्तीफा दे रहा हूं। इस्तीफा स्वीकार किया जाए। विधायक मनोज कुमार पांडे ने

कहा कि ५समाजवादी पार्टी विधानमंडल दल के मुख्य सचेतक के पद से हमने इस्तीफा दे दिया है। अमेठी गौरीगंज से समाजवादी पार्टी के विधायक

राकेश प्रताप सिंह और अभय सिंह एक गाड़ी से सदन पहुंचे। अयोध्या जनपद के सपा विधायक अभय सिंह और अंबेडकरनगर से सपा विधायक राकेश पांडे भी मौजूद हैं। तीनों ने संयुक्त बयान में कहा कि अंतरात्मा की आवाज पर वोट देंगे। विधायक राकेश प्रताप सिंह अपनी पार्टी की दोनो मीटिंग में नहीं गए थे और उन्होंने बागी रुख अख्तियार कर रखा था। इन तीनों विधायकों ने भाजपा के पक्ष में मतदान किया। राकेश पांडे के सांसद बेटे रितेश पांडे दो दिन पहले भाजपा में शामिल हुए हैं।

राज्यसभा चुनाव पर भाजपा नेता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि भाजपा के आठ उम्मीदवार हैं, सभी जीतकर दिल्ली जाने वाले हैं। जिनको डर था वे सुबह से ही गा रहे हैं कि भाजपा ने उनके विधायकों को छीन लिया है। उन लोगों को अपने घर को संभालना नहीं आया। किसी पर आरोप लगाने से पहले ये भी देख ले कि आपके घर के सदस्य क्यों आपसे भागना चाहते हैं? अखिलेश यादव को बहाना देने की आदत पड़ चुकी है। 2017 में बहाना दिया, 2019 में दिया और अब 2024 में भी एक और बहाना देंगे।

#### राज्यसभा चुनाव: अखिलेश बोले - बागी विधायकों पर कार्रवाई होगी, मैं किसी की अंतरात्मा के बारे में नहीं जानता

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी विधायकों की बगावत पर कहा कि उन्हें धमकाया गया होगा। सत्ता के खिलाफ वोट करने

के लिए साहस की जरूरत होती वोट करने वाले सपा विधायकों पर पार्टी के खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी क्योंकि दूर कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि की जरूरत होती है। सपा विधायकों के किसी को धमकाया गया होगा। किसी चाहिए होगी। उन्होंने मजाकिया लहजे में डील हुई है। अब ये डील कितनी बड़ी है मैं के हमारे साथियों का मानना है कि ऐसे



है।राज्यसभा चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार को के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि ऐसे लोगों पार्टी के साथियों का मानना है कि ऐसे लोगों को सरकार के खिलाफ वोट करने के लिए साहस बागी होने पर उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से को कुछ ऑफर दिया गया होगा। किसी को सुरक्षा कहा कि सुनने में तो ये भी आ रहा है कि पैकेज नहीं जानता। 拓 कार्रवाई निश्चित होगी क्योंकि पार्टी लोगों को दूर कर दीजिए। #सपा विधायक पल्लवी

पटेल पर अखिलेश यादव ने कहा कि मैं किसी की अंतरात्मा के बारे में नहीं जानता। जो जा रहे हैं उन्हें जरूर कोई लाभ मिला होगा लेकिन ऐसे लोगों पर कार्रवाई निश्चित होगी। बता दें कि राज्यसभा चुनाव में सपा के करीब छह विधायकों ने पार्टी से बगावत करते हुए भाजपा प्रत्याशी को वोट किया है। सपा के मुख्य सचेतक व विधायक मनोज पांडेय ने तो अपने पद से इस्तीफा देने के बाद भाजपा प्रत्याशी को वोट किया।

#### संपादकीय Editorial

#### Kunju sad on Kunjan's song

Long ago, when culture used to create geography, a folk song 'Kunjan Jai Peiyan' which stood as a bridge between Dogri and Kangri, used to reach across every border. Even today, after Mallika Pukhraj, her daughter Tahira Syed is searching for that era in 'Kunjan' in Pakistan, oblivious of the language, dialect or meaning, then even Paprola and Nadaun are mentioned together. Similarly, when Pratap Sharma sang 'Jeena Kangre Da', the region got mixed with the cultural mood of Punjab. The songs chosen then now add the notes of Himachal to the tune of 'Nati Sirmaur Aali A' or the rhythm of 'Rohru Jaana Meri Aamie', but has today 'Kunjaan' become old oi surrounded by political depression. At least the part which used to display the common heritage through 'Kunjaan' by calling the society like brother-in-law 'Ik Ghut Pee Jaiyan Dera', was it fragmented by the politicians. Why today 'Kunjan' of Hamirpur got separated from Kangra. Why did the cultural heritage that left an impact llike 'Jeena Kangre Da' get lost in its own land even after getting mixed up in Himachal? Even today a singer like Kuldeep Sharma is coming down from Shimla and performing 'Inhan Badiyan Jo Tudka', but the whole atmosphere is under the control of politics Why is the hope of songs sad in the disappointment of politics? Why is 'Kunja coming to the foundation stone plaques and asking where those days have gone from where the entire locality used to come together after drinking the water. Why is Jeena Kangre Da not able to open his windows towards the east of power today? If 'Kunjan' comes and sits on the buildings being constructed day and night at the Central University in Dehra, then why has the land of Jadrangal in Dharamshala become untouchable for them. These branches were dark black in color, so now their hearts have also become black. After all, why did she get angry with Kangra while now finding new ways to fly or fly? Evidence shows that 'Kunjan' is now learning the dialect of the ministers in Shimla, so political pundits fear that because of her the language of power may change forever. Kunjan is seeing new greenery in the entire state for its conservation, but the fear is that it may become a curse for the people of Kangra where this species reached Shimla by singing

Today, migratory birds from Pong Dam have come to compete with Kunjan. Is this why Kunjan has left Kangra or has the grain for this reduced? The state which till vesterday was recognizing the flying birds under the power of BJP, is still seeing some clipped wings. Obviously these are the feathers of birds only. Some local and some expatriate, but many leaders are making efforts by wearing clipped wings on the stage, while somewhere far away in Sudhir Sharma's field, sighs are rising. There, an injured 'Kunjaan' is trying to sing once again to prove that 'the water of Nadaun's fountain is still sweet.' The surprising thing is that the 'Dera' i.e. brother-in-law who was influenced by 'Kunjaan' She has been doing this, but now she does not believe that anything sweet can be found in Kangra region. This bitterness comes in the statements, then Kunjua is being remembered by singing 'Kapde Dhoyan Nale Roan' in Sujanpur Tehra on the banks of Beas. Is Kunju sad or lifted by the scenario Where tears are flowing in the memory of Kunju, what should 'Kunjaan' do? They are afraid of bathing in Beas. If she had taken a bath, perhaps Kunjan would have changed her colour. She is afraid of drinking the water of Beas, but even in the camp of many migratory birds at Pong Dam, she cannot find anyone of her own. River Beas had once seen the expansion of Maharaj Sansai Chand's empire, but today his dynasty became dependent not on horses.

#### Economy: Many reforms in banking and economic sector in the last decade; Possibility of rapid growth with changing face

After coming to power, the Modi government made many reforms in the banking and economic sectors, due to which there is a possibility of rapid growth in the economy in future. Economic reforms were started in the country from the year 1991, but now work is being done rapidly in this direction. In 1991, many measures were taken to bring positive changes in the areas of foreign trade, tax reforms, foreign

investment etc., which grow. Before the Modi 2014, India's GDP at trillion and in 2007 it was exactly 60 years after 1947, trillion in 2007. Today, Indian economy has 2014, the Indian economy in the world, while in 2019, became the fifth largest Minister Nirmala paper in the Lok Sabha, **UPA** government's tenure achievements of Modi the general public, it was country was facing the Modi government had economy back on track. In



helped the Indian economy to government came to power in current prices in 2013 was \$18 about \$10 trillion. Thus, India's GDP reached \$10 according to real GDP, the become 30 trillion dollars. In was the tenth largest economy i.e. within just five years, it economy in the world. Finance Sitharaman, through a white highlighted the failures of the and While presenting the government's tenure before said that before 2014, the economic crisis, due to which to work hard to bring the response, Congress presented

a black paper, in which it mentioned the failures of the Modi government and said that the BJP is working to destroy democracy and unemployment and inflation have increased during its tenure. According to the International Monetary Fund (IMF), India's GDP at current prices is now \$ 37.3 trillion, whereas at the time of independence, India's GDP was \$ 227 billion. After coming to power, Modi government made many reforms in the banking and economic sector, the most important of which is the launch of Goods and Services Tax (GST), merger of banks, Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, Pradhan Mantri Mudra Yojana, PM-Swanidhi Yojana, Launch of Atal Pension Yojana, Sukanya Samriddhi Yojana, Indian Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) etc. In The Indian Economy-A Review report, the journey of the last 10 years of the Modi government has been described as very important in terms of economic reforms. According to the report, nominal GDP is likely to grow at seven percent in fiscal year 2025, while GDP is expected to grow at the rate of 7.3 percent in fiscal year 2024. Not only this, it has also been predicted that India's GDP may grow at the rate of seven percent by 2030. Global rating agency S&P Global has also confirmed this claim of the government due to the strength of India's financial sector and the recent structural reforms undertaken by the government. In such a situation, the size of the Indian economy will be 50 trillion dollars in 2027 and more than 70 trillion dollars in 2030. India was the world's third largest economy in 2023 in PPP terms, while China and the US stood first and second respectively. For the first time in the eighties, the Bombay Stock Exchange (BSE) index crossed the 1,000 mark in fiscal year 1989–90. The mark level was crossed. In the year 2006, the BSE index crossed the 10,000 mark. Then in the financial year 2014-15 it crossed the level of 30,000 points and in the financial year 2018-19 it crossed the level of 40,000 points. The record crossed the 70,000 mark in FY 2023. Nifty index also crossed the record level of 21,000 points in the year 2023. Inflation and unemployment rates are under control in India. Apart from this, per capita income is also continuously increasing. In such a situation, it can be expected that the Indian economy will remain strong in the coming years also. Although the percentage of government debt to GDP is high, it is likely to come down somewhat in the coming years due to the increase in Goods and Services Tax (GST) and other tax and non-tax revenue collections.

#### Politics: Symbols are created from images; Elections will have an interesting impact on politicians and people's minds.

Many images of Prime Minister Narendra Modi combine into one and create their impact by turning into a symbol. Many images of Rahul Gandhi are either still in the process of development or those that have been developed have not yet been condensed. No coherent discipline of study of images has yet developed in India. For this, the work of studying, recording and measuring the research methodology and its effects is yet to be done in a consistent manner. 'Images' are not just images, they gradually transform into symbols and deeply influence our psyche. In this process, they create a form of 'mobilisation' of the public mind. In the study of Indian politics and elections, there is talk about 'narratives', but there is no extensive discussion on images. 'Sephology' continues to explain election results on the basis of people's statements, but neither political scientists nor election analysts give much thought to the impact of images in this process. Whereas I believe that images in politics gradually influence our political imagination. In the process of creating this influence, they keep influencing the voters towards any leader, any political party and any idea. Many times images create belief or disbelief and take us to the election booths. They create fascination in us and many times also create disillusionment. For the last several years, I have been involved in the study, discussion and debate on the consequences of the images of political leaders on political and electoral mobilization. I keep trying to understand the formation, deterioration, stagnation and dynamics of the images of political leaders. Recently, we interacted with youth aged 20 to 30 years from small cities, districts and towns of Uttar Pradesh. These youth were from different castes and classes of the society, Among them were students, boys and girls, people from both categories. The implications that emerged from the conversations with them can be very interesting and helpful in understanding contemporary politics. From these conversations it was understood that the images of leaders grow and decline slowly. Their sudden rise or fall comes from major actions or events taken by them. I had basically placed two images at the center of these dialogues – Indian Prime Minister Narendra Modi and Opposition leader Rahul Gandhi. In the accounts of the images of Prime Minister Modi, there was often a tendency to describe him as an honest leader, free from greed and nepotism and dedicated to development. Many youth considered him a leader dedicated to the country and religion. It was most interesting to know that many of the youth among them have also started seeing him as a 'man of the times'. He said that he is a leader who is creating and influencing an entire era. From the accounts that I got to hear about the images in the minds of these youth, two things became clear. Firstly, there has been a big jump in the public image of Prime Minister Narendra Modi after the consecration of Ram Janmabhoomi. People have started seeing and calling him as 'Yug Purush'.

His image of 'Yug Purush' in the minds of the common youth should be considered to have originated after the Ramjanmabhoomi Pran-Prishtha ceremony because it was not heard of before that. Second, his image today 'beyond politics' includes images related to social, religious and family matters. There are both positive and negative perceptions in the public image of any politician. But in public statements, there are often more positive narratives in terms of images. Secondly, many times people feel indifference about them. At the third level comes the statement of negativity of the images, the quantity or percentage of which is usually small. Among national leaders, the leader whose 'other image' keeps changing in the minds of the people is Rahul Gandhi of Congress. Rahul Gandhi continues to develop his image through his many resistance political efforts. His images are still in development. Those images have not yet turned into symbols, as has happened with the images of Prime Minister Modi. Many images of Prime Minister Narendra Modi combine into one and create their impact by turning into a symbol. Many images of Rahul Gandhi are either still in the process of development or those that have been developed have not yet been condensed. There is a contradiction between their existing images and the expectations from them among a section of youth. Many youth did not agree with his 'angry young man' image. They expect that his image should be of gentleness like Rajiv Gandhi. Many youth were found talking about the incident of bill tearing during Manmohan Singh's government. His image consultants might think that Indian youth like anger. They make the mistake of thinking that the Indian psyche aspires for unity, not conflict. Bharat Jodo Yatra has led to the development and expansion of Rahul Gandhi's images as a symbolic leader of opposition politics, but those multiple images are yet to be unified and converted into a single political symbol. Unless images are transformed into symbols, they do not leave a long-term impact. Their effect is momentary. Today the pace of change in the images of political leaders is fast. The main reason for this is the development and expansion of cyber space, media-alternative media, social sites. Since the Indian youth mind is the biggest consumer of this 'communication network', the speed of change of images in its mind is more rapid. Like every time, the changing images of political leaders will affect the Indian elections this time too. It remains to be seen what their impact will be this time and how they will be able to bring about a change in the election results. The main reason for this is the development and expansion of cyber space, media-alternative media, social sites. Since the Indian youth mind is the biggest consumer of this 'communication network', the speed of change of images in its mind is more rapid. Like every time, the changing images of political leaders will affect the Indian elections this time too. It remains to be seen what their impact will be this time and how they will be able to bring about a change in the election results.

### भिखारी गैंग का पर्दाफाश चार महिलाओं सहित संभल से सपा सांसद शफीकुर्रहमान बर्क का

म्रादाबाद/आसपास

पांच गिरफ्तार एसपी सिटी ने किया खुलासा निधन, लंबे समय से अस्पताल में थे भूतीं

अजहर अली

उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के थाना पाक्बरा पुलिस ने एक ऐसे गिरोह को पकड़ा है जो घरों में भीख मांगने के बहाने लोगों के घरों से सामान चोरी की घटनाओं को अंजाम देते पुलिस ने चोरी की घटनाओं का खुलासा करते हुए चार महिलाओं सहित पांच लोगों को गिरफ्तार किया है उनके कब्जे से चोरी किया गया

माल भी बरामद किया है पुलिस लाइंस सभागार में एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया ने प्रेस वार्ता कर चोरी करने वाले इस गैंग का खुलासा किया पाकबड़ा थाना क्षेत्र के गांव रतनपुर कला के रहने वाले अनीश पुत्र रजा हुसैन ने भीख मांगने वाले महिला व पुरुष अज्ञात लोगों के द्वारा घर में रखे बैग से कपड़े व सोने चांदी के जेवरात चोरी कर ले जाने के संबंध में शिकायत दर्ज कराई



सामान बरामद किया है पकड़े

गए आरोपियों ने बताया कि वह

लोग ईट भट्टों पर कार्य करते हैं

एवं भीख मांगने के बहाने मौके

पुलिस ने अमरोहा जनपद के डिडौली थाना क्षेत्र के डयोढ़ी उर्फ हादिपुर के रहने वाले विजय पुत्र शिवचरण, नेहा पुत्री विजय, सोनम पुत्री विजय, पुनम पत्नी दीपक और मुरादाबाद जनपद के डिलारी थाना क्षेत्र के गांव मेवला मानपुर निवासी दीपा पत्नी विशाल को गिरफ्तार करते हए इस मामले में पाकबड़ा थाना अनीश के घर हुई चोरी की

घटना का खुलासा किया पकड़े में घुसकर रुपए, जेवरात, गए आरोपियों के कब्जे से चोरी मूल्यवान संपत्ति, आधार कार्ड किया गया एक लेडिज बैग दो आदि चोरी कर लेते हैं तथा वह जोड़ी पायल, एक अंगूठी, एक लोग आधार कार्ड इस उद्देश्य से मोबाइल, दो आधार कार्ड, दो चोरी करते हैं जोड़ी कपड़े, दो बिछुए आदि

कि अन्य स्थान पर जाकर अपना नाम पता बदलकर वह बता सके और महिलाओं को इसलिए साथ रखते हैं ताकि कोई भी उन लोगों पर शक न

सिकंदर/अजहर अली

मुरादाबाद/संभल।समाजवादी पार्टी के सांसद डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क का निधन हो गया है। वह लंबे समय से मुरादाबाद के निजी अस्पताल में भर्ती थे। हाल ही में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भी समाजवादी पार्टी ने इन्हें उम्मीदवार बनाया था। 94 साल की उम्र में ली अंतिम सांस संभल से सपा के सबसे वरिष्ठ सांसद शफीकुर्रहमान का निधन हो गया है। 94 साल की उम्र में उन्होंने मुरादाबाद के कांठ रोड स्थित निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। समाजवादी पार्टी के वे सबसे वरिष्ठ सदस्यों में एक थे। वह कई बार समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में मुरादाबाद से भी चुनाव लड़े थे।

#### चाहने वालों में शोक की लहर

साल 2019 लोकसभा चुनाव में संभल से सांसद चुने गए। इस बार उन्हें सपा ने संभल से

लोकसभा प्रत्याशी घोषित कर उन्हे लंग्स में इन्फेक्शन और दिया था। सपा सांसद को इस किडनी की समस्या थी। लंग्स साल की शुरू में निजि में इन्फेक्शन होने की वजह से हॉस्पिटल में लंग्स और किडनी सांस लेने में दिक्कत आ रही थी में इन्फेक्शन होने की वजह से जबिक किडनी में क्रिएटिनिन भर्ती कराया था। सपा सांसद काफी बड़ा हुआ था। इसके उन मुस्लिम नेताओं में से एक अलावा शरीर के कई हिस्से भी थे जो किसी भी मौके पर अपनी ठीक से काम नहीं कर रहे थे। बात को बेबाकी से रखते थे। उन्हे काफी परेशानी थी। उनके निधन की खबर मिलते फिलहाल बर्क के पार्थिव शरीर ही अस्पताल में उनके चाहने को उनके परिजन संभल ले गए

वालों और पार्टी कार्यक्रताओं और नेताओं का जमावड़ा लग बर्क के निधन पर गया। उनके चाहने वालों में शोक की लहर है। वहीं, डॉक्टर सपा ने जताया दुख अनुराग महरोत्रा ने बताया कि

बर्क के निधन पर सपा ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा,

कई बार के सांसद जनाब शफीकुर्रहमान बर्क साहब का इंतकाल, अत्यंत दुऱ्खद। उनकी आत्मा को शांति दे भगवान। शोकाकुल परिजनों को यह असीम दुऱ्ख सहने का संबल प्राप्त हो। भावभीनी श्रद्धांजलि! मुरादाबाद से सपा

#### सांसद एसटी हसन ने

दुख जताया

संभल से सपा सांसद बर्क के निधन पर मुरादाबाद से सपा सांसद एसटी हसन ने दुख

उन्होंने कहा सपा सासंद बर्क साहब का निधन हमारे और हमारी पार्टी दोनो के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। देश का बहुत बड़ा नेता दुनिया से रुखसत हो गया है। ऐसा नेता जिसने कभी किसी से डर के काम नही किया जिसने हमेशा दिलेरी और हक इंसाफ की बात की। उन्होंने कहा शफीक उर रहमान इतने बोल्ड, इतने बहादुर, और इतने ईमानदार नेता देश में बहुत कम रह गए हैं।

\* MA

#### का फायदा उठाकर खाली घरों निर्मम हत्या: महिला के टुकड़े-टुकड़े कर लाश को थैलों में पैक कर जंगल में फेंका, सिर-हाथ और टांग अलग-अलग मिले



मुरादाबाद- अमरोहा में की पहचान नहीं हो सकी है। सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां तीस वर्षीय महिला की निर्मम हत्या करने के बाद उसके शव के टुकड़े कर उसे जंगल में फेंक दिया गया। पुलिस महिला की पहचान करवाने की कोशिश कर रही

फॉरेंसिक टीम को मौके पर लगाया गया है। यूपी के अमरोहा से सनसनीखेज वारदात सामने आई है। तीस वर्षीय महिला की निर्मम हत्या करने का मामला सामने आया है। शव के टुकड़े करके थैलों में पैक करने बाद जंगल में फेंक दिया। महिला का सिर, एक हाथ, टांग और गुप्तांगों को शरीर से अलग कर दिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की। पहुंच गए। एसपी कुंवर अनुपम काफी प्रयास के बाद भी शव सिंह के निर्देश पर फारेंसिक टीम

फॉरेंसिक टीम ने मौके पर सबूत जुटाए हैं। पुलिस ने टुकड़ों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस पर मोर्चरी में रखवा दिया है। यह घटना नौगांवा सादात थाना इलाके के याहियापुर चौराहे से दो सौ मीटर दूर जंगल की है। यहीं पर पुलिस पिकेट लगती

मंगलवार की सुबह स्थानीय लोग खेतों के लिए निकले तो उन्होंने यूकेलिप्टस के पेड़ों के नीचे कुछ थैलियां पड़ी हुई देखीं। आसपास पक्षी मंडरा रहे थे। महिला ने सलवार और कुर्ता पहन रखा था। थोड़ी देर में लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष पंकज तोमर फोर्स के साथ मौके पर

भी मौके पर पहुंच गई। टीम ने घटनास्थल पर जांच पड़ताल की। तलाशी के दौरान महिला के हाथ, पैर, सिर और अन्य शरीर थैलों से बरामद हुए। महिला की निर्मम हत्या देखकर लोगों के होश उड़ गए पुलिस भी अचंभित रह गई। अंदाजा लगाया जा रहा है कि महिला की हत्या कहीं दूसरे स्थान पर करने के बाद यहां जंगल में फेंका गया है। सीओ अंजलि कटारिया ने बताया कि मृतक महिला की उम्र करीब तीस साल है। उसकी पहचान

नहीं हो सकी है। महिला को किसी धारदार हथियार से काटा मुरादाबाद-मुरादाबाद के गया और कितने टुकड़े किए गए, फॉरेंसिक टीम इसकी जांच कर रही है। फिलहाल शव की पहचान करने के प्रयास किया जा रहे हैं। खुलासे के लिए तीन टीमें काम कर रही हैं।

हिंदी अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र KTUN NA LIKHUN SACH दैनिक क्यूँ न किखूँ सच को आवख्यकता है उत्तर प्रदेश . उत्तराखंड मध्य प्रदेश ,दिल्ली ,बिह्यर पंजाब छतीसगढ़ राजस्थान आदि सभी राज्यों से रिपोर्टर,जिला व्यूसे विज्ञापन प्रतिनिधि की **XILUO OX#90271716991**1

#### जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद

असद मदनीपहुंचे मुरादाबाद

अजहर अली

मुरादाबाद- जमीयत उलेमा

उत्तर प्रदेश का प्रान्तीय प्रबंधक कमेटी अधिवेशन मुरादाबाद के जामा मस्जिद पार्क में हुआ। जमीयत उलेमा के हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी मुस्लिम राग रागते हुए नज़र आए। मदनी ने साफ कहा कि देश में मुसलमानों को गालियां देकर मलाई काटी जा रही है। मदनी से मुसलमानों को संबोधित करते हुए कहा कि विरोध में काले झंडे लेकर खड़ी हो...हुष्श्चष्ह कमीशन के चेयरमैन पर साधा निशाना कहा- बच्चों के लिए तो कुछ नहीं किया बल्कि एक बच्चे को स्कूल का प्रिंसिपल दूसरे बच्चे से मुसलमान होने पर पिटवाती



उन्हें मदरसों से परेशानी है, मुसलमानों को गाली देकर अपनी मलाई चाट रहे हैं...कुछ तो शर्म कीजिए...पड़े-लिखे को चैयरमैन बनाया होता वो बच्चों अपने इलाकों में ऐसी जमात की फिक्र करता... मदनी ने अपने बनें जो कुछ भी गलत होने पर संबोधन में कहा कि मसलमानों को वोटर लिस्ट ठीक करवानी चाहिए, कागज़ात को सही करें मुसलमान, मुल्क में गैर मुस्लिम जो नफरत करते हैं वो बहुत कम है उनके चक्कर मे मत पढ़िए, दुश्मनों को कामयाब मत करिए, परसेप्शन और रियलिटी

#### है उससे फ़र्क़ नहीं पड़ता लेकिन में फ़र्क़ समझे मुसलमान, 12वीं का छात्र और हाईस्कूल को छात्रा घर से हुए गायब, ट्रेन के आगे कूदकर दी जान... गले लगकर हो गए जुदा

पाकबड़ा इलाके में रहने वाले छात्र-छात्रा घर से निकल गए थे। इसके बाद वह अमरोहा के कैलसा इलाके में पहुंचे। जहां सामने आ रहे ट्रेन के आगे कूद गए। इससे दोनों की मौत हो गई। कूदने से पहले दोनों ने एक दूसरे को पकड़ा हुआ था। घर से निकले प्रेमी युगल ने ट्रेन के आगे कूद कर जान दे दी। घटना के बाद लोगों की भीड़ जमा हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की। दोनों मृतक एक ही गांव के रहने वाले थे। आत्महत्या के पीछे क्या कारण रहा, पुलिस इसकी जांच में जुट गई है। मुरादाबाद जनपद के पाकबड़ा थानाक्षेत्र के गांव सुल्तानपुर फलेदा में अनुसूचित जाति के दो ग्रामीणों के परिवार रहते हैं। एक ग्रामीण का 18 वर्षीय बेटा कक्षा 12 में पढ़ता था। जबिक दूसरे ग्रामीण की

16 वर्षीय बेटी दसवीं की छात्रा

थी। मंगलवार की सुबह करीब 10=30 बजे युवक और किशोरी घर से निकले थे। इसके बाद दोनों पैदल ही अमरोहा देहात थानाक्षेत्र के चक्काली लेट रेलवे स्टेशन से मुरादाबाद की तरफ अमरोहा पाकबड़ा बॉर्डर पर गुवाहाटी ट्रेन के आगे कर कूदकर जान दे दी। ट्रेन की चपेट में आकर दोनों के शव बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। मृतक युवक का सिर धड़ से अलग होकर दूर जा गिरा। थोड़ी देर में स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई।

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। सीओ अंजलि कटारिया ने भी घटनास्थल का मुआयना किया। एएसपी राजीव कुमार सिंह ने बताया कि प्राथमिक जांच में मामला प्रेम प्रसंग का सामने आ रहा है। ट्रेन के चालक ने भी स्टेशन मास्टर को यही जानकारी दी थी कि युवक और युवती ने एक दूसरे को गले लगाकर ट्रेन के आगे छलांग लगा दी। फिलहाल दोनों ने आत्महत्या क्यों की इसका पता लगाया जा रहा है।

#### मुरादाबाद के लोगों की परेशानी होगी कम, मैक्स मेड सेंटर में शुरू हुई मैक्स हॉस्पिटल पटपड़गंज की कैंसर ओपीडी

मुरादाबाद। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में सुनकर मरीज और परिजन सभी की टेंशन बढ़ जाती है। मुरादाबाद में भी कैंसर के मामलों में इजाफा देखा जा रहा है। ऐसे में लोगों को इसके प्रति जागरूक करने और कैंसर के उपलब्ध इलाज की जानकारी देने के उद्देश्य से मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पटपड्गंज (नई दिल्ली ) ने एक इंटरेक्टिव सत्र का आयोजन किया। इस दौरान अस्पताल ने अपनी कैंसर ऐलान किया। मुरादाबाद में ये कैंसर ओपीडी पीली कोठी के पास ऋाँस रोड मॉल में फर्स्ट फ्लोर स्थित मैक्स मेड सेंटर में चलेगी। महीने के चौथे मंगलवार को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक इस ओपीडी में डॉक्टर कैंसर मरीजों को देखेंगे।

सपा सांसद बर्क का काफी लंबे

समय से इलाज चल रहा था।



सर्जिकल ऑन्कोलॉजी के डायरेक्टर डॉक्टर नितिन लीखा, सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर संजीव तुली की मौजूदगी में इस ओपीडी को शुरू किया गया। डॉक्टरों ने इस मौके पर इस बात जोर दिया कि रोग का शुरुआती स्टेज में डायग्नोज और फिर सही इलाज से जीवन सुधर जाता है। मैक्स हॉस्पिटल पटपड़गंज नई दिल्ली में सर्जिकल ऑन्कोलॉजी के डायरेक्टर डॉक्टर नितिन लीखा ने ओपीडी सेवा के लॉन्च पर कहा, कैंसर का शुरुआती स्टेज में पता चल जाने और फिर लेटेस्ट तकनीक से इलाज मिलने पर मरीज ठीक हो जाते हैं और उनके लिए अच्छे रिजल्ट आते हैं, ऐसे में लोगों के बीच इसकी जानकारी होना बेहद हैं।

कैंसर के इलाज और अधिक प्रभावशाली बना दिया है। 3डी व्यू के साथ रोबोट असिस्टेड कंसोल डॉक्टरों को ऐसी सर्जरी करने में मदद करता है जिन्हें करना लेप्रोस्कोपी के जरिए कठिन माना जाता है। रोबोटिक सर्जरी में टांके लगाने में भी आसानी रहती है जिससे रिकंस्ट्रक्शन में मदद मिलती है. इस ओपीडी के शुरू होने से मुरादाबाद के लोगों को कई तरह से फायदा होगा, अब उन्हें प्राथमिक परामर्श के लिए किसी एक्सपर्ट के पास मुरादाबाद से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। डॉक्टर संजीव तुली ने बताया, मुरादाबाद में विशेषज्ञ डॉक्टर को दिखाने पर आगे के इलाज के लिए मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पटपड़गंज एक बेस्ट विकल्प है. मुरादाबाद के मरीज बहुत ही कम वक्त में यहां पहुंच सकते हैं और आगे का इलाज या परामर्श पा सकते

#### क्यूँ न लिखूँ सच

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक नरेश राज शर्मा द्वारा ए0एच0प्रिंटर्स, ए-11 असालतपुरा, लंगड़े की पुलिया, मुरादाबाद-244001(उत्तर प्रदेश) से छपवाकर कार्यालय म.नं. 210 खा सीतापुरी,डबलफाटक जनपद-मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश) से प्रकाशित एवं वितरित किया।

संपादक - नरेश राज शर्मा

मो. 9027776991 RNI NO- UPBIL/2021/83001

इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादक हेतु पीआरबी एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी होंगे तथा समस्त विवाद मुरादाबाद न्यायालय के अधीन होंगे।

क्यूँ न लिखूँ सच समाचार पत्र में सभी पद अवैतनिक है

#### सपने में आए खाटूश्याम, मन्दिर बनवाया, निकली झंडी यात्रा



मंदिर बनाने का दिया आदेश सुबह होने पर व्यापारी अनिल कुमार गुप्ता ने अपनी पत्नी सर्वेश गुप्ता को सपने की बात कही तो दम्पति ने ईश्वरीय आदेश दरबार,श्री कार्तिकेय जी,श्री सैकड़ों भक्तगण मौजूद रहे।

बालाजी महाराज की मूर्तियां रिठौरा एक व्यापारी के सपने में स्थापित करने को लाए जिनका विधि-विधान से तीन दिवसीय स्थापना दिवस में मंगलवार को महन्त गुड्खू पाण्डेय ,महन्त भूदेव, महन्त सत्यम आदि के दिशानिर्देश में स्थापना पूजन के उपरांत मंगलवार को नगर में मानते हुए नगर के ठाकुर मंदिर विशाल झंण्डी यात्रा निकाली परिसर में एक विशाल गई।इस पुनीत कार्य में ऋषभ खाटूश्याम श्याम जी महाराज उर्फ सैंकी, मोहित, राजकुमार, के भव्य मंदिर का निर्माण राजेश, कमलेश, संजीव, करवाकर उसमें श्री गणेश बृजेश, सचिन, बिनोद कुमार जी,राजा खाटू नरेश, श्रीराम गुप्ता, श्वेता,शालू,रेखा सहित

#### जायसवाल महासभा रीवा जिला के अध्यक्ष एवं कार्यकारिणी का पूनरगठन व शपथ ग्रहण समारोह टीडीएस गार्डन में हुआ संपन्न

#### सपथ ग्रहण कार्यक्रम एवं भण्डारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया

क्यूँ न लिखूँ सच प्रदीप कुमार तिवारी रीवा। जायसवाल महासभा ( कलार समाज ) रीवा की नई कार्यकारिणी का पुनर्गठन, सपथ ग्रहण कार्यक्रम एवं भण्डारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसके मुख्य अतिथि जयप्रकाश जायसवाल प्राचार्य थे एवं विशिष्ट रूप से बीडी जायसवाल, इंजीनियर सूर्यभान जायसवाल, महेन्द्र जायसवाल पाण्डे टोला, छोटे लाल जायसवाल, चन्द्रमणि जायसवाल माणो, शंकर जायसवाल माणो, मोहन जायसवाल जेपी नगर रीवा

सह सचिव, शिवप्रसाद जायसवाल को संगठन मंत्री एवं कार्यक्रम में सर्व प्रथम सहस्त्र परमसुख जायसवाल को सह बाहु भगवान की पूजा आरती संगठन मंत्री बैठक में उपस्थित समाज सैकड़ों लोगों की की गई। इसके बाद सभी सर्वसम्मति से चुना गया। अतिथियों का माल्यार्पण कर छोटेलाल जायसवाल को वरिष्ठ स्वागत किया गया। तत्पश्चात उपाध्यक्ष, रवी जायसवाल, कार्यकारिणी का पुनर्गठन किया गया। जिसमें महेन्द्र त्रिवेणी जायसवाल, सुदर्शन कुमार जायसवाल को जायसवाल, रमेश जायसवाल पाण्डे टोला, महेन्द्र जायसवाल जिलाध्यक्ष, राजेश जायसवाल

गुढ़, हरिश्चन्द जायसवाल, सूर्यभान जायसवाल पतौता, राजमणि जायसवाल रीवा आदि उपाध्यक्ष चुना गया। एडवोकेट योगेन्द्र जायसवाल को कार्यालय सचिव चुना गया। जय प्रकाश जायसवाल प्राचार्य, वीरेन्द्र राय, सीएल जायसवाल, अनन्त लाल जायसवाल एवं एडवोकेट रामाश्रय जायसवाल को संरक्षक चुना गया। शम्भू लाल जायसवाल जी, एडवोकेट

, बीडी जायसवाल एवं मोहन लाल जायसवाल को मार्गदर्शक मण्डल सदस्य चुना गया। राम सिया जायसवाल, राहुल जायसवाल आदि को प्रचार मंत्री चुना गया। कार्यकारिणी गठन के बाद चुने गए सभी पदाधिकारियों को जय प्रकाश जायसवाल प्राचार्य द्वारा सपथ ग्रहण कराया गया। इसके बाद सभी अतिथियों द्वारा सभी चुनें हुए पदाधिकारियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी गई। सभी अतिथियों द्वारा समाज की राजनैतिक, सामाजिक ,आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति के बारे में अपने अपने विचार रखे गए एवं सुधार के लिए सुझाव दिए गए। सर्व सम्मति से अविलंब संगठन का पंजीकरण एवं बैंक खाता खुलवाना सुनिश्चित किया गया। इसके बाद लगभग 5 बजे शाम को नवनिर्वाचित अध्यक्ष महेन्द्र कुमार जायसवाल द्वारा कार्यक्रम समाप्त करने की

इन्जिनियर सूर्यभान जायसवाल



सचिव, रूपक जायसवाल को

#### शिक्षक समस्याओं के लेकर राष्ट्रीय शिक्षक महासंघ की टीम ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से मुलाकात की

क्यूँ न लिखूँ सच शेर सिंह

बरेली- राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ बरेली की टीम ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से मिलकर शिक्षको की समस्यों को उनके सामने रखा।संगृठन द्वारा बताया गया की पूर्व में संगृठन द्वारा माह में जिला कार्यालय और ब्लॉक कार्यलय पर संग्ठन के साथ एक बार एक मीटिंग की बात

संग्ठन द्वारा टेबलेट चोरी होने पर हुई कार्यवाही का विरोध किया गया,सर द्वारा बताया गया कि कार्यवाही का निस्तारण कर वेतनमान पास करने का अनुरोध किया। मुलाकात करने बालो में बिथरी के ब्लॉक अध्यक्ष मंत्री सूर्यप्रकाश जी,बिथरी की



अरविंद चौधरी,भुता के ब्लॉक अध्यक्ष रमेश कुमार,भदपुरा के अध्यक्ष बचन सिंह, ब्लॉक मझगवा ब्लाक अध्यक्ष विवक मिश्रा,नीतू ब्लॉक अध्यक्ष रेनु वर्मा,भुता के

डॉ अरूण गंगवार,क्यारा के क्मार,अनिल कुमार,दुर्गेश बाब्,इंद्रपाल गंगवार आदि

#### महामंत्री अनुपूर्णा कुशवाहा ,कार्यकारी अध्यक्ष राममोहन तिवारीजी.प्रदीप मथरिया.प्रदीप अध्यक्ष फरीदपुर अतुल सिंह, पुष्कर,नीरज राणा,ऋतु शिक्षको के लंबित चयन कुमार,ब्लॉक महामंत्री भदपुरा शर्मा,अरविंद कुमार,गिरजेश

# जमीन की खरीद-फरोख्त में 47 लाख रुपये की ठगी, चार लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज

मुरादाबाद - जमीन की खरीद-फरोख्त में ठगी का मामला सामने आया है। इस प्रकरण में पीड़ित पक्ष के सैय्यद मशकूर हाशमी ने चार लोगों के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है। इसमें मोहम्मद आसिफ, शराफत व इनका बेटा और शाइस्ता जवी नामजद हुए हैं। मुगलपुरा में मकबरा उत्तरी नई आबादी में गौस पाक साहब की ज्यारत के पास के रहने वाले पीड़ित सैय्यद मशकूर हाशमी का आरोप है कि आरोपी मोहम्मद आसिफ लाल मजिस्द में कुआं सरांय खजूर का रहने वाला है। दूसरा आरोपी शराफत इसका चाचा है, जो हरथला में रिक्शा कॉलोनी का रहने वाला है। इन लोगों ने उन्हें याकूबपुर में 1.4000 हेक्टेयर जमीन की खरीद में उनसे 1.24 करोड़ रुपये का सौदा किया था। इस जमीन की मूल मालिक शाइस्ता जवी को बताया था। फिर पीड़ित उनकी बातों पर भरोसा कर उन्हें बयाना के तौर पर 10 अप्रैल 2023 को 10 लाख रुपये का चेक दिया था, जबकि 11 लाख रुपये उसे नकद दिए थे।

धनराशि देने के आसिफ व शराफत ने सैय्यद मशकूर हाशमी को 100 रुपये के स्टांप पर 20 अप्रैल 2023 को इकरारनामा लिख दिया था। इसके बाद आसिफ व शराफत सौदे के मुताबिक अन्य शेष रुपये मांगने लगे तो सैय्यद मशकूर हाशमी ने उन्हें 25 मई 2023 के दिन 10 लाख रुपये नकद और दिए। साथ ही 11 लाख रुपये के दो चेक दिए थे। इस तरह सैय्यद मशकूर हाशमी का

कि उन्होंने आरोपी आसिफ व उसके चाचा शराफत को कुल 47 लाख रुपये दिए हैं। यह रुपये देने के बाद पीड़ित आसिफ व उसके चाचा से संबंधित जमीन के बैनामा करने को लेकर दबाव बनाने लगा था लेकिन, आरोपी बैनामा करने से टाल रहे थे। पीड़ित ने पुलिस को बताया है कि कुछ समय बाद उन्हें पता चला कि संबंधित जमीन को आसिफ व उसके भाई साजिद हुसैन, मोबीन व उसकी मां आमना खातून, भूरी पत्नी भूरे खां निवासी जिगर कॉलोनी को वर्ष 2007 में बेच चुके हैं। पीड़ित ने बताया कि इस मामले में जब उसने आसिफ व उसके चाचा शराफत से पूछा तो वह दोनों आग बबूला हो गए और गाली-गलौज की।अब रुपये वापस न कर उलटे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। इस मामले में मुगलपुरा थानाध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि मामले में आरोपियों के विरुद्ध जालसाजी और धोखाधड़ी के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। प्रकरण में जांच कर

# मुरादाबाद स्थित काशीराम मलिन बस्ती में संस्था ने अपनी 41वी

#### पा8शाला का किया शुभारंभ

मुरादाबाद- परिवर्तन ५६दी चेंजफ संस्था ने कांशीराम स्थित पॉकेट 🗸 ३ , मुरादाबाद में परियोजना पा8शाला के तहत अपनी 41वी पा8शाला का शुभारंभ किया। संस्था अभी तक अपनी 36 पा8शाला अलग-अलग शाखाओं में पूर्ण कर चुकी है और वर्तमान में संस्था की 5 पा8शालाएं अलग-अलग शहरों ऋमशः मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, गाज़ियाबाद, अमरोहा में शुचारु रूप से चल रही है, और इसी ऋम में आज संस्था ने अपनी 41वी पा8शाला का शुभारंभ किया। संस्था की सभी पा8शाला में मलिन बस्तियों के

क्यूँ न लिखूँ सच



पा8शाला में पढ़ने वाले बच्चों व मुरादाबाद नागरिक समाज से का तीन से चार महीने पढ़ाने के बाद पास ही के सरकारी स्कूल में दाखिला कराती है। आज के बच्चों को नई शिक्षा नीति के में मुरादाबाद नागरिक समाज व

इत पढ़ाया जाता है। संस्था वर्तन व्यापार मंडल से संजीव जी रिव टंडन जी उपस्थित रहे और इस कार्यक्रम में संस्था की तरफ़ से अध्यक्ष कपिल कुमार सहित इस शुभारंभ में अतिथि के रूप सभी पदाधिकारी व स्वयंसेवक

#### बेहतर सड़क व परिवहन से कम होगी दुर्घटनाएं, जानें क्या हो रहे प्रयास

निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि प्रदेश को देश ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे कम सड़क दुर्घटनाओं वाला प्रदेश बनाने का प्रयास किया जा रहा है। सड़क सुरक्षा सरकार की प्राथमिकताओं में है। रोड सेफ्टी को आगे लेकर चलना है। इसमें लोक निर्माण, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं पुलिस सहित अन्य विभागों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। पुरस्कार वितरण समारोह में मंत्री ने कहीं बात -जितन प्रसाद ने यह बात राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के समापन अवसर पर आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में कहीं। इस अवसर पर परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्दयाशंकर सिंह विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थे। इस मौके पर लोक निर्माण मंत्री विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि सड़क दुर्घटना रोकने के लिए हाईवे पर अवैध कट को बंद किया जाए। छोटी सड़कों पर रम्बल स्ट्रीप्स तथा

साइनेज का अवश्य प्रयोग किया



जाये। उन्होंने कहा कि अच्छी सड़कें भी बनेंगी, अच्छी बसे भी चलेंगी और लोगों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जायेगी। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति के जीवन को बचाने के लिए दुर्घटना बाहुल्य स्थलों पर एम्बुलेंस की व्यवस्था की जायेगी। नियमों का पालन न करने वालों पर होगी कार्रवाई -परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि परिवहन विभाग नें पिछले दो वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मृत्यु को रोकने के लिए जन जागरूकता कई कार्यक्रम चलाये हैं। सड़क दुर्घटना में मृत्यु होना दर्शाता है कि सड़क सुरक्षा के नियमों का कड़ाई से अनुपालन नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें।

परिवहन मंत्री ने कहा कि सड़क सुरक्षा की व्यवस्था के लिए अलग से टीम गठित करने के विषय पर मुख्यमंत्री ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। उन्होंने कहा कि एक बार वे स्वयं भी सड़क दुर्घटना के शिकार हो चुकें हैं। एक व्यक्ति ने सही समय पर मुझे अस्पताल पहुँचाया और मेरी जान बचाई। सड़क दुर्घटना के समय देवदूत बनकर मदद करने वाले ऐसे गुड सिमेरिटन को आज सम्मानित करके गर्व महसूस कर रहा हूँ। गुड सिमेरिटन की संख्या जितनी अधिक होगी उतनी सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु कम होगी। प्रमुख सचिव भी रहे मौजूद -छले साल से लेकर अब तक सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत लगातार गतिविधियां विभाग द्वारा संचालित की गईं हैं। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह से लेकर राज्य स्तर एवं जिले स्तर तक सड़क सुरक्षा संबंधी गतिविधियां विभाग द्वारा की जा रही हैं। ट्रैफिक पुलिस, पीडब्ल्यूडी, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग के समन्वय से निष्ठापूर्वक कार्य किया जाए,

#### संक्षिप्त समाचार

तृतीय फाल्गुन श्याम वंदना महोत्सव 28 फरवरी को बड़ी

#### धूमधाम के साथ मनाया जाएगा

क्यूँ न लिखूँ सच -राकेश गुप्ता

शामली। शामली मे तृतीय फाल्गुन श्याम वंदना महोत्सव 28 फरवरी 2024 को होने जा रहा है महोत्सव बड़े धूमधाम के साथ महाराजा अग्रसेन भवन बनाया जाएगा जिसमें बाहर से आए कलाकार नरेश नरसी सचिन नामदेव विशाल सैनी एवं चुलकाना मंदिर के पुजारी श्री देवेंद्र पंडित जी अपनी उपस्थिति देगे। कार्यक्रम श्री श्याम मित्र मंडल परिवार शामली द्वारा आयोजित किया जाएगा जिसमें सुंदर सुंदर झांकियां देखने का मौका मिलेगा। श्याम मित्र मंडल परिवार द्वारा उत्सव में प्रसाद की उत्तम व्यवस्था की जाएगी। सभी नगरवासी उत्सव में भाग लेकर धर्म लाभ प्राप्त कर भगवान जी के दर्शन करे।प्रसाद की उत्तम व्यवस्था की गई

#### डर कर नहीं, डट कर उठाते थे सदन मे मजलूमों की आवाज़

क्यूँ न लिखूँ सच -यूसुफ

समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीक उर रहमान बर्क के इंतकाल पर सपा नेता हाजी तालिब अंसारी ने इज़हार ए अफसोस कि हमने एक करते हुए कहा

समाजवादी दिया, उन्होंने और सच्चाई की वह देश सबसे बुजुर्ग

ईमानदार नेता को खो हमेशा हक की सियासत की संसद के सांसद थे नही बल्कि

डट कर गरीब, मजलूम, अक्लियत और देश के पसमांदा समाज की आवाज़ को सदन से सड़क तक उठाने का काम किया उनके पूरा जीवन संघर्ष मे गुजरा,उनका जाना मुल्क और कौम का बड़ा सियासी नुकसान है हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उनको जन्नत मे बुलंद मुकाम अता फरमाए हाजी तालिब अंसारी सपा

#### सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मल्हीपुर में खाते से पैसा निकालकर दुरुपयोग करती बी.सी.पी.एम

क्यूँ न लिखूँ सच -प्रेमचंद जायसवाल

श्रावस्ती। जनपद में जमुनहा तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत मल्हीपुर खुर्द ग्राम प्रधान रोहित कुमार गुप्ता पुत्र बालक राम ने बी.सी.पी.एम पर आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी को तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। दिए गए तहरीर में बताया है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मल्हीपुर में कार्यरत बी.सी.पी.एम पद पर रिजवाना मुराद ने ग्राम प्रधान व आशा शकुन्तला श्रीवास्तव का जॉइंट बैंक खाता ग्राम स्वच्छ समिति का सीएचसी मल्हीपुर द्वारा खोला गया है, जिस खाते में सरकार द्वारा 10 हजार रुपए प्रतिवर्ष आता है, वही साफ सफाई वह अन्य सामान के लिए जिसका उपयोग किया जाना है। किंतु विपक्षी रिजवाना मुराद जो कि लालची महिला है अपने असीन पद का दुरुपयोग करते हुए पैसे को फर्जी कार्य के लिए निकाल रही है। वहीं प्रार्थी ने जब इसका विरोध किया तभी विपक्षी ग्राम प्रधान व शकुंतला देवी को अभद्रता पूर्वक गाली देते हुए फर्जी मुकदमा लिखवाने की धमकी दे डाली। इस इस संबंध में प्रार्थी ने जिलाधिकारी श्रावस्ती को तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है।

#### जमीन पर रखे ट्रांसफामेर से हो सकता है बड़ा हादसा

क्युँ न लिखुँ सच -प्रेमचंद जायसवाल

श्रावस्ती गिरंट जमीन पर रखा ट्रांसफार्मर से हो सकता है बड़ा हादसा करंट से आए दिन हो रहे हादसों के बाद भी बिजली विभाग शबक नहीं ले रहा है। कहीं टूटे बिजली के खम्भों के सहारे बिजली दौड़ाई जा रही है तो कहीं लटकते तारों से बिजली आपूर्ति हो रही है। जमुनहा तहसील क्षेत्र के हरदत्त नगर गिरंट में पांच साल पहले बिजली की लाइन खींच कर सड़क किनारे जमीन पर खुले में ट्रांसफार्मर रख आपूर्ति शुरू की गई थी। यह ट्रांसफार्मर आज भी जमीन पर ही रखा है और बिजली खुले में जमीन पर रखे इस ट्रांसफार्मर से बड़े हादसे की संभावना बनी रहती है। लेकिन बिजली विभाग की ओर से ट्रांसफार्मर को सुरक्षित करने के लिए न तो चारो ओर से कटीले तार लगवाए गए हैं और न ही जाली लगाई गई है। लेकिन यहां बिजली विभाग की लापरवाही लगातार जारी है। आए दिन बिजली से जिले में हादसे होते रहते हैं। इसके बावूजद लापरवाह बिजली विभाग सबक नहीं ले रहा है।

एसएसपी ने किया पुलिस आफिस का सघन निरीक्षण

एटा - मगंलवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह व अपर पुलिस अधीक्षक धनंजय सिंह कुशवाहा तथा अपर

🔔 🥛 अपराध योगेंद्र सिंह पुलिस कार्यालय का गया औचक निरीक्षण भिलेखों के रखरखाव तथा 🖥 के रखरखाव तथा संबंधित को दिए

आवश्यक दिशा निर्देश गऐ ! बताया जाता है कि कल बुधवार को एडीजी जोन आगरा का जिले में वार्षिक दौरा संभावित है तथा वह पुलिस आफिस का भी मुआएना कर सकती हैं !

### पूर्व सांसद जयाप्रदा फरार घोषित, घर में अकेला देख जेठ ने विवाहिता अब कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर को बुरी नीयत से पकड़ा, पति बचाने होगी कुर्की, सीओ करेंगे तलाश

में कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर पूर्व सांसद जया प्रदा को फरार घोषित किया गया। उनकी गिरफ्तारी के लिए सीओ स्तर के अफसर के नेतृत्व में टीम गठित करने को कहा गया है। मामले की अगली सुनवाई छह मार्च को होगी। रामपुर की पूर्व सांसद जयाप्रदा को कोर्ट ने फिर से बड़ा झटका दिया है। आचार संहिता उल्लंघन के दो मामलों में फरार घोषित करते हुए उनकी गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। अब गिरफ्तारी के लिए सीओ के नेतृत्व में टीम गठित की जाएगी। टीम को छह मार्च को पूर्व सांसद को कोर्ट में पेश करना होगा। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान पूर्व सांसद जयाप्रदा के खिलाफ केमरी और स्वार थाने में आचार संहिता के उल्लंघन के दो मामले दर्ज किए गए थे। इनमें विवेचना के बाद पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। स्वार में दर्ज एक मामले में गवाही पूरी हो चुकी है, जबकि केमरी के



मामले में जयाप्रदा के बयान दर्ज होने थे लेकिन पूर्व सांसद जयाप्रदा 16 अक्तूबर 2023 से कोर्ट में हाजिर नहीं हो रही हैं। इसके बाद कोर्ट की ओर से सात बार गैर जमानती वारंट जारी किए। एसपी को भी पत्र लिखकर उनकी गिरफ्तारी स्निश्चित करने को कहा था। कोर्ट ने जमानतियों के खिलाफ भी पत्रावली खोली थी लेकिन पूर्व सांसद कोर्ट में हाजिर नहीं मंगलवार एमपीएमएलए मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट ने पूर्व सांसद जयाप्रदा को कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर उनको फरार घोषित कर दिया मामले गवाही होना शेष है। इस है। साथ ही उनके खिलाफ फिर

से गैर जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने एसपी को पत्र लिखकर आदेश दिया है कि पूर्व सांसद की गिरफ्तारी के लिए सीओ स्तर के अफसर के नेतृत्व में टीम बनाकर छह मार्च को कोर्ट में पेश करें। वरिष्ठ अधिकारी अभियोजन अमरनाथ तिवारी ने बताया कि कोर्ट ने पूर्व सांसद जयाप्रदा को फरार घोषित कर दिया है। उनके खिलाफ धारा 82 सीआरपीसी के तहत कार्रवाई की है। एसपी को पत्र लिखकर आदेश दिया है कि सीओ के नेतृत्व में टीम बनाकर पूर्व सांसद को गिरफ्तार कर छह मार्च को कोर्ट में पेश

#### करने के आदेश दिए हैं। रिश्तों से रिसता खून: पत्नी ने प्रेमी क साथ मिलकर कराई थी पति की हत्या, मिट्टी में दबाया गया तमंचा बरामद

यूपी के चित्रकूट में पुलिस ने किसान की हत्या का खुलासा करते हुए पत्नी, प्रेमी व उसके दो अन्य सहयोगियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। चित्रकूट जिले में दस दिन पूर्व किसान की घर के अंदर गोली मारकर हत्या के मामले में खुलासा हुआ कि उसकी पत्नी ने ही प्रेमी के साथ मिलकर हत्या कराई थी। पुलिस ने पत्नी, प्रेमी व उसके दो अन्य सहयोगियों को पकड़ लिया है। उनकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त तमंचा भी बरामद हो गया। मंगलवार को पुलिस कार्यालय स्थित राघव सभागार में एसपी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि मृतक रामबाबू पटेल की हत्या की गुत्थी सुलझ गई है। मृतक की पत्नी सविता के बदौसा के टिकुरी निवासी इलियास से प्रेम संबंध थे। इसकी जानकारी उसके पति को हो गई थी। फेसबुक में सविता व इलियास की एक फोटो भी रामबाबू ने देखी तो इसका विरोध कर उसने पत्नी को पीटा और प्रेमी इलियास से गांव में कहासुनी हुई थी। इसी दौरान प्रेमी ने उसे देख लेने की धमकी दी थी। एसपी ने बताया कि इसी आधार पर पुलिस टीम ने खोजबीन की तो पता चला कि मृतक की पत्नी व प्रेमी ने उसे रास्ते से हटाने की योजना बनाई। योजनानुसार पत्नी बच्चों को लेकर मायके चली गई। फोन से आशिक को घर की लोकेशन परिजनों से लेकर देती

KTUH HA LIKHUH SACH



रही। 18 फरवरी को इसी योजना में इलियास अपने गांव के दोस्त फैजल, अपने भाई बरकत अली व बांदा के महुराई दोबरिया के ललित किशोर के सहयोग से रामबाबू के घर पहुंचा। पिछवाडे के रास्ते से फैजल छत पर पहुंचा फिर अकेले सो रहे रामबाबू की कनपटी में गोली मार दी। इसके बाद आरोपी जिले से बाहर भागने की योजना बना रहे थे। तमंचे को एक खेत की मिट्टी खोदकर दबा दिया था। सर्विलांस के जरिये पुलिस टीम ने सबसे पहले इलियास को पकड़ा। कड़ाई से पूछताछ में उसने हत्या का सारा राज खोल दिया तो पुलिस ने मृतक की पत्नी सविता व अन्य सहयोगियों को दबोच लिया। आरोपियों की निशानदेही पर आलाकत्ल को खेत से बरामद किया है। पुलिस टीम ने सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है। फेसबुक में फोटो लोड़ करना

के रिसन के मजरा फाटापुरवा निवासी रामबाबू की घर में तमंचे से गोली मारकर हत्या के खुलासे में हत्यारोपी द्वारा फेसबुक में फोटो लोड करना ही महंगा पड़ गया। हत्यारोपी इलियास ने अपने प्रेम का इजहार करने के लिए अपने फेसबुक एकाउंट में सविता के साथ की फोटो डाली। यही फोटो उसके पति से विवाद का कारण बनी फिर यही हत्या की वजह बनी और अंत में यही फोटो पुलिस के लिए सुराग बनी। तब सारे हत्यारोपी जेल चले गए। एसपी ने बताया कि यह ब्लाइंड मर्डर था। पहले लगा कि यह खुदकुशी का मामला है लेकिन मौके से केवल एक कारतूस का अगला हिस्सा मिला था तमंचा नहीं। इससे तय हुआ कि यह खुदकुशी नहीं है। मृतक के घर के अंदर पहुंचने का कोई रास्ता खुला नहीं मिला था। अंदर से

सब कमरे बंद थे। हिंदी अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र देनिक क्यूँ ज छिखूँ सच

को आवख्यकता है उत्तर प्रदेख . उत्तराखंड मध्य प्रदेश ,दिल्ली ्रिबिह्यर पंजाब <mark>छतीस</mark>गढ़ साजस्थान आदि सभी राज्यों से रिपोर्ट्स,जिला च्यूसे विज्ञापन प्रतिनिधि की

सप्पूर्क करें १९०२७ । १८०० वर्ष

# आया तो उसको पीटा, रिपोर्ट दर्ज विवाहिता ने अपने जेठ के

खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। उसने आरोप लगाया है कि शादी के बाद से ही जेठ की उस पर बुरी नजर थी। एक दिन पति जब बाजार गया, तो जेठ ने उसे दबोच लिया। पति बाजार से आया, उसने बचाना चाहा, तो उसे भी जमकर पीटा। मामले में जेठ के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो गई है।हाथरस में चंदपा क्षेत्र के एक गांव निवासी विवाहिता ने अपने ही जेठ पर घर में दबोचने और विरोध करने पर पीटने का आरोप लगाया है। विवाहिता का पति बचाने आया तो उसे भी लाठी-डंडों से पीटा। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। आरोपी की तलाश जारी है। महिला ने कहा है कि वह आगरा की निवासी है। उसकी शादी फरवरी 2023 को चंदपा के एक गांव निवासी युवक के साथ हुई थी। शादी



के बाद से ही उसके जेठ की उस पर बुरी नजर है। एक दिन जेठ ने उसे अकेला पाकर बुरी नियत से पकड़ लिया। उसने 112 नंबर से पुलिस को बुला लिया था। परिजन और गांव के कुछ लोगों ने समझा कर फैसला करवा दिया। बीते 23 फरवरी को जब पति बाजार गए थे, तो जेठ ने अकेला देखकर पकड़ लिया।

शोर मचाने पर सास-ससुर आ गए। पुलिस को बुलाने लगी, तो जेठ ने पीटा। बाजार से लौटे पित ने बचाना चाहा, तो उनको भी पीटा। वह पति के साथ मामा के साड़ के यहां चली गई है। वहां भी आकर जान से मारने की धमकी दे रहा है। पीडिता की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है।

#### औद्योगिक विकास मंत्री ने निर्देश, बोले- लैंड बैंक बढ़ाएं, छोटे बड़े उद्यमियों का डाटा तैयार करें

उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने अफसरों को निर्देश देते हुए कहा कि ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड एवं प्राइवेट सेक्टर के उद्यमियों की सूची तैयार करें। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने मंगलवार को पिकप भवन सभागार लखनऊ में वरिष्ठ अधिकारयों के साथ बैठक कर प्रदेश को ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था वाला राज्य बनाने के संकल्प की पूर्ति की दिशा में जारी प्रयासों, अब तक के परिणामी और भावी नीति बनाने के लिए अब तक हुई प्रगति की समीक्षा की। मंत्री नन्दी ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का ऐसा राज्य है, जहां सर्वाधिक एक्सप्रेस-वे हैं। सर्वाधिक पांच इंटरनेशनल एयरपोर्ट , डोमेस्टिक एयरपोर्ट वाला राज्य बनने के साथ ही सड़क, हाईवे, बिजली, इंटरनेट कनेक्टिवटी का विस्तार हुआ है। कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है। इसलिए यहां पर बड़े निवेशक आ रहे हैं। आज प्रदेश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुल

रहे हैं। प्रदेश में सांस्कृतिक



धरोहरों को सजाने और संवारने का काम हो रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश को वन ट्रिलयन डॉलर इकोनॉमी वाला राज्य बनाने के लक्ष्य को पूरा करने में सभी अधिकारी जुट जाएं। बैठक में उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन डालर अथव्यवस्था वाला राज्य बनाने के संबंध में विस्तृत चर्चा हुई। जिसके ऋम में प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी वाला राज्य बनाने के लिए अधिकृत कंसल्टेंट कंपनी डिलाइट टीम द्वारा पावरप्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से अवगत कराया गया। बैठक में लैंड बैंक बढ़ाने, छोटे - बड़े उद्यमियों का डाटा तैयार करने के लिए उद्यमी मित्र के साथ ही जीएम डीआईसी को लगाने पर चर्चा हुई। लैंड पूलिंग पॉलिसी पर भी चर्चा हुई। मंत्री नन्दी ने कहा कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर,

अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एवं प्राइवेट सेक्टर के उद्यमियों की सूची तैयार की जाए। बैठक में जेडबल्यूएस, अमूल आदि इन्वेस्टर्स की समस्याओं को तत्काल हल करने पर चर्चा हुई। बैठक में ईवी के क्षेत्र में ओला के साथ बातचीत होने की भी चर्चा हुई। बैठक में अधिकारियों ने कहा कि पिछले साढे छह वर्षों के योजनाबद्ध प्रयासों से वर्तमान में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था सबसे अच्छी स्थिति में है। राज्य का कुल सकल राज्य घरेलू उत्पाद, जो वर्ष 2021-22 में ?16.45 लाख करोड़ था, वर्ष 2022-23 में बढ़कर ?22.58 लाख करोड़ से अधिक हो गया है। राष्ट्रीय आय में 9.2 प्रतिशत योगदान के साथ उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है, जो देश के आर्थिक विकास के मुख्य चालक के रूप में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वर्ष 2021-22 में वर्तमान और स्थिर कीमतों पर उत्तर प्रदेश की विकास दर ऋमश 20.1 प्रतिशत तथा 9.8 प्रतिशत थी, जबिक देश की विकास दर 18.4 प्रतिशत तथा 9.1 प्रतिशत

#### बेटी को लेकर पत्नी चली गई मायके... तो दुनिया छोड़ गया पति, इस हाल में मिली लाशः; चीख पड़े घरवाले

पत्नी, बेटी को लेकर मायके चली गई। तीन महीने से आ नहीं रही थी। पति कई बार बुलाने गया फिर भी नहीं आई। आहत होकर पति दुनिया छोड़ गया। घर में फांसी पर लटकती उसकी लाश मिली। इसे देखकर घरवाले चीख पड़े। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में सोमवार की देर रात युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी। वह पत्नी के मायके से न लौटने से आहत था। सुबह परिजन को जानकारी हुई तो घर में चीख पुकार मच गई। ग्रामीण परेशान परिजन को ढांढस बंधाते रहे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली। घटना मक्खनपुर थाना क्षेत्र के नगला तुरिकया की है। यहां के रहने वाले अंकुश ( 24 ) की ससुराल मैनपुरी जिले के घिरोर थाना क्षेत्र के नसीरपुर गांव में है। उसकी पत्नी सुरभि करीब तीन माह से अपने मायके में रह रही हैं। उसने पति पर वाद दायर कर रखा है। इसको लेकर अंकुश परेशान चल रहा था। बताते हैं कि वह कई बार पत्नी को मनाने के लिए और साथ चलने के लिए कह रहा था। परिजन के अनुसार पत्नी ने आने से मना कर दिया। इसको लेकर वह काफी क्षुब्ध था। उसने सोमवार देर रात फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। परिजन को इसकी जानकारी काफी देर बाद हुई, जिससे परिजन में चीख पुकार मच गई। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल लेकर आई है। जहां मंगलवार को शव पोस्टमार्टम के बाद परिजन के सौंप दिया। थाना प्रभारी मक्खनपुर शैलेंद्र सिंह का कहना है कि पति-पत्नी में तीन माह से विवाद चल रहा था। इसके चलते युवक परेशान था। इसी अवसाद में उसने आत्महत्या की है। युवक एक फैक्टरी में मजदूरी करने के साथ ही फल का ठेला लगाता था, उसके एक बेटी है।

#### संक्षिप्त समाचार



#### पुलिस की मिली भगत से दबंगों ने घर में घुसकर मचाया तांडव

क्यूँ न लिखूँ सच

एटा -पीड़िता का आरोप चुनावी रंजिश को लेकर ग्राम प्रधान के भतीजे व परिवार के लोगों ने घर में घुस कर बोला हमला, दबंगों के कहर से मासूम और महिला सहित आधा दर्जन लोग हुए घायल पुलिस ने सुबह ही पैसे लेकर दोनों पक्षों में प्रधान की मौजूदगी में कराया था फैसला पीड़ित पक्ष के घर पहुंचते ही दबंगों ने घर में घुसकर बरसाए लाठी डंडे, पूर्व में भी ग्राम प्रधान ने पुलिस से सांठगांठ कर कई संगीन मामलों को किया है रफादफा पूर्व में भी संविधान के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के मामले में सकीट पुलिस ने किशोर को पकड़ा था ग्राम प्रधान और पुलिस ने मामले को थाने से ही कर दिया था रफादफा सकीट थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत मुबारिकपुर सराय गांव का है पूरा



#### सीएमओ ने किया पंजीकरण शिविर का उद्घाटन

क्यूँ न लिखूँ सच

एटा । गरीबों मजलूमों असहाय बेसहारा रोगियों का निशुल्क उपचार कराने उतरे ताज होटल परिवार द्वारा पूर्व घोषणा के तहत आज दिनाँक 27-2-2024 दिन मंगलवार को एटा शहर के कचहरी स्थित ऋिश्चियन नेत्र हॉस्पीटल पर एक स्वास्थ पंजीकरण शिविर लगाया गया, जिसका उद्घाटन जनपद स्वास्थ विभाग के मुखिया मुख्य चिकित्सा अधिकारी उमेश कुमार त्रिपाठी द्वारा फीता काटकर किया गया । शिविर उद्घाटन के समय मुख्य चिकित्सा अधिकारी श्री त्रिपाठी ने रोगियों का पंजीकरण कर समाजसेवी अबरार मियाँ द्वारा किये गये इस मानवीय कार्य की <mark>सराहना की । इस मौके पर अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी</mark> एटा और पत्रकार, अधिवक्तागण एवं पंजीकरण को आये रोगी तीमारदार मौजूद रहे।



#### आमजन को जागरूक करने के लिये नुक्कड नाटक का आयोजन किया गया

क्यूँ न लिखूँ सच

एटा -अपर पुलिस महानिदेशक यू0पी0 112 के आदेश के ऋम में यू0पी0 112 एवं उ0प्र0पुलिस द्वारा प्रदत्त की जा रही आकास्मिक सेवाओं ( जैसे पुलिस, फायर, मैडीकल आदि ) महिला पीआरवी, नाईट स्कॉर्ट एवं सवेरा योजना से अपर पुलिस अधीक्षक अपराध एटा श्री योगेन्द्र सिंह नोडल अधिकारी यूपी 112 के निर्देशन में आमजन को जागरूक करने के लिये श्रीमंत युवाजन रंग मंडल जनपद-कानपुर नगर के कलाकार दल नेता राहुल पांडे, कमलेश सिंह, सरिता सिंह,राजू शर्मा द्वारा थाना कोतवाली नगर क्षेत्रांतर्गत अलीगंज चौराहा, मारहरा रोड कोतवाली देहात, कस्बा मिरहेची थाना मिरहेची पर नुक्कड नाटक का आयोजन किया गया। इस मौके पर उ0नि0 श्री मनोज कुमार मय पुलिस टीम उपस्थित रहे।



# आकाशीय बिजली गिरने से एक बच्चे की मृत्यु चार घायल

क्यूँ न लिखुँ सच बिहारपुर। सूरजपुर जिले के ओडगी विकासखंड के ग्राम पंचायत खैरा के प्राथमिक पाठशाला में आकाशीय बिजली गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई है तो वही चार बच्चे व महिला स्वास्थ्य कर्मी घायल हो गए जिन्हें एंबुलेंस से स्वास्थ्य केंद्र लाया गया जहाँ से प्राथमिक उपचार कर जिला हॉस्पिटल सूरजपुर रेफर कर दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार खैरा पंचायत के प्राथमिक शाला टीकाकरण किया जा रहा था इसके लिए महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता पहुची हुई थी। अचानक हुए मौसम परिवर्तन से तेज बारिश ओला हवा के साथ बिजली चमकने लगी। उसी दौरान आकाशीय बिजली का कहर स्कूल भवन गिरा जहाँ 30 बच्चों सहित स्वास्थ कार्यकर्ता थी। मौके पर ही एक बच्चे की मौत हो गई तो वही 4 बच्चों के साथ महिला स्वास्थ्यकर्मी झुलस गई। सभी को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया लेकिन बारिश के कारण वहां बिजली गुल थी इसके कारण घायलों के इलाज के करने में स्वास्थ

कर्मचारियों को काफी मशक्कत

क्यूँ न लिखूँ सच



ताड़इक चालक लगाने ग्रामीणों ने मांग की है। वही

जब कभी भी मौसम खराब हो की सप्लाई नहीं होने से क्षेत्र के जाता है तो क्षेत्र में विद्युत लाइट लोगों को काफी परेशानियों का

क्यूँ न लिखूँ सच

सूरजपुर- कलेक्टर श्री रोहित

व्यास के निर्देशन एवं मुख्य

सामना करना पड़ता है वहीं स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी से बात किया गया तो उनके द्वारा बताया गया

कि विद्युत लाइट नहीं है जो की अस्पताल में सौर ऊर्जा चलित विद्युत लाइट की व्यवस्था की गई है लेकिन खराब होने की वजह से सालों से बंद पड़ा हुआ है वही मैं इस पूर्व में रहे कलेक्टर गौरव सिंह को लिखित में

आवेदन दिया था लेकिन अब तक सुधार नहीं किया गया है जहां हमें इलाज करने में काफी दिक्कत होता है सुरेश कुमार मिश्रा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी

#### जिले में पूर्ण हुए 30,000 से अधिक पीएम आवास,30,000 से अधिक हितग्राहियों ने

तैयार किया अपना आशियाना



सिंह पिता रामिकशन 10 वर्ष,

भुवन सिंह पिता देवनारायण

सिंह 8 वर्ष के साथ महिला

स्वास्थ्य कर्मी ज्योति पैकरा

घायल हो गई है। वही सूरजपुर

जिले के वनांचल बिहरपुर क्षेत्र

के किसी भी स्कूलों में ताड़इक

चालक नहीं होने की वजह से

यह घटना हुई है स्कूलों में

भारतीय सेना में भर्ती अग्निवीर हेतु

कार्यशाला का आयोजन

मार्च को दोपहर 2:00 बजे से

कार्यशाला का आयोजन किया

उक्त कार्यशाला में जिले में

संचालित समस्त महाविद्यालय,

आई.टी.आई., समस्त हायर

कॉलेज,

पॉलिटे किनक

सूरजपुर- कलेक्टर श्री रोहित व्यास के निर्देशन में भारतीय थलसेना में अग्निवीर भर्ती 2024 हेतु आवेदकों को प्रेरित किये जाने सेना भर्ती कार्यालय रायपुर से रिटायर्ड सब मेजर सतीश कुमार, सहायक भर्ती अधिकारी, सैनिक भर्ती कार्यालय बिलासपुर से सुबदार मेजर शिवेन्द्र नारायण पाण्डेय, एवं पैरा कमांडो स्पेशल ट्रेनर पुरुषोत्तम कुमार चंद्रा आदि के उपस्थिती में 29 फरवरी को प्रात: 11:00 बर्ज से कार्यशाला का आयोजन ऑडोरियम, रिंगरोड, न्यू सर्किट हाउस के बगल में आयोजित किया गया है। इसी प्रकार जनपद पंचायत स्तर पर भी अलग-अलग कार्यशाला आयोजित की गई है जिसमें शा. महाविद्यालय ओड़गी में 28 सेकेण्डरी स्कूल के छात्र-छात्राएं फरवरीको प्रातः 11:00 बजे से, उपस्थित होगे। थल सेना शा. महाविद्यालय रामानुजनगर अग्निवीर भर्ती 17 से 21 आयु में 01 मार्च को प्रात: 11:00 वर्ष के कोई भी पात्र आवेदक बजे से, शा. महाविद्यालय इसमें ऑनलाइन आवेदन कर प्रेमनगर में 01 मार्च को दोपहर सकते है। कार्यशाला में यह

चिंतन करे सपा नेतृत्व, क्यों साथ छोड़ रहे लोग

2:00 बजे से, शा. महाविद्यालय बताया जाएगा कि कैसे हम

भाजपा में शामिल हुए सांसद रितेश पांडेय बोले-

भाजपा में शामिल हुए सांसद चाहिए कि इस तरह का माहौल

रितेश पांडेय ने कहा कि मैं कभी पार्टी में क्यों बनता जा रहा है। सपा में नहीं रहा लेकिन सपा के रितेश ने कहा कि किसी भी नेतृत्व को चिंतन करना चाहिए पार्टी की राजनीति के अपने तौर-कि आखिर क्यों लोग सपा छोड़ तरीके होते हैं। अपने मुद्दे भी होते रहे हैं। बसपा छोड़कर भाजपा में हैं। उस पर काम होना चाहिए शामिल हुए सांसद रितेश पांडेय लेकिन पार्टी के प्रति समर्पित ने अपने पिता समेत अन्य सपा रहे लोगों की उपेक्षा या उन्हें विधायकों की ऋाँस वोटिंग पर दरिकनार करने की कीमत पर कहा कि यह सपा नेतृत्व के लिए नहीं।सांसद ने कहा कि यूं तो मैं चिंतन करने का अवसर है। यह कभी समाजवादी पार्टी में नहीं किन परिस्थितियों में हो रहा है रहा लेकिन किसी भी पार्टी से यह समाजवादी पार्टी के नेतृत्व अगर एक साथ कई विधायक को बखूबी पता है। सांसद रितेश एवं वरिष्ठ नेता साथ छोड़ रहे हैं ने कहा कि समाजवादी पार्टी तो यह छोटा मामला नहीं है। के पुराने लोगों को ऐसे कठिन किसी भी पार्टी को ऐसी दशा फैसले करने पड़ रहे हैं। कई बार में विस्तृत मंथन करना चाहिए विधायक रह चुके तथा पार्टी जिससे आगे इस तरह की के लिए समर्पित रहे लोग अब पुनरावृत्ति न हो सके। भाजपा दूर हो रहे हैं। निश्चित रूप से यह में शामिल होने के बाद रितेश ने फैसला आसान नहीं होता कहा कि जल्द ही वे क्षेत्र में लेकिन परिस्थितियां ही ऐसा पहुंचेंगे। यहां आकर लोगों से माहौल तैयार करती हैं। सपा मुलाकात का सिलसिला फिर नेतृत्व को यह विचार करना से शुरू होगा।

महाविद्यालय प्रतापपुर में 02 जावे एवं इस जॉब में हमें क्या-को बेहतर बना सकते है।

भैयाथान 02 मार्च को प्रातः आर्मी में अपनी सेवा दे सकते है 11:00 बजे से तथा शा. इसमें चयन हेतु कैसे तैयारी की क्या सुविधाएं सरकार द्वारा मुहैया करवाई जाती है। जिले के आवेदकों के लिए यह बहुत ही सुनहरा अवसर है कि इस अवसर का लाभ उठाकर अपने जीवन

कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती कमलेश नंदनी साहू के मार्गदर्शन में जिले में 30,000 से अधिक आवास पूर्ण हो चुके है तथा शेष आवासों की सतत मॉनिटरिंग जारी है। जिन्हें मार्च माह के अंत तक पूर्ण करने का लक्ष्य शासन से प्राप्त है। जिनके निर्माण कार्य द्वारा निगरानी की जा रही है। ज्ञात हो कि शासन गठन के पश्चात से ही प्रधानमंत्री आवास

गति से हितग्राहियों के खातों में निर्माण के आधार पर तत्काल की प्रगति हेतु हितग्राही वार राशि भी जारी हो रही है। अब निरंतर अधिकारी कर्मचारियों तक 37489 हितग्राहियों को प्रथम किस्त की राशि 131 करोड़, 34776 हितग्राहियों को द्वितीय किस्त की राशि 153 योजना ग्रामीण के कार्यों में करोड़, 31770 हितग्राहियों को काफी तेजी आई है तथा इसी 100 करोड़ तथा 17637 रही है।

हितग्राहियों को 22 करोड अर्थात् आज पर्यंत कुल 406 करोड़ रुपए हितग्राहियों के खाते में राशि जारी की जा चुकी है। निर्माणाधीन 7512 हितग्राही जैसे-जैसे निर्धारित निर्माण कार्य पूरा करा रहे है, उन्हें उनके किस्त की राशि जारी की जा

#### तहखाने में पूजा मामले को लेकर हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की कैविएट, ये है पूरा मामला

व्यासजी के तहखाने में पूजा के मामला में हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने व्यासजी के तहखाने का डीएम को रिसीवर बनाने और पूजा-पाठ के जिला अदालत के आदेश को बरकरार रखा है। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ मसाजिद कमेटी सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी। ज्ञानवापी स्थित व्यासजी के तहखाने में पूजा-पाठ जारी रखने संबंधी इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी। इससे पहले ही हिंदू पक्ष ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर दी है। अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कहा कि शीर्ष अदालत से अनुरोध किया गया है कि कोई भी आदेश पारित करने से पहले हमारा पक्ष जरूर सुना जाए।शैलेंद्र कुमार पाठक व्यास ने 25 सितंबर 2023 को जिला जज की अदालत में वाद दाखिल किया था। उनकी मांग

थी कि ज्ञानवापी स्थित व्यासजी

का तहखाना जिलाधिकारी को



सपर्द किया जाए। साथ ही, वहां वर्ष 1993 के पहले के जैसे ही पूजा-पाठकी अनुमति दी जाए। दोनों पक्षों की दलीलों और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अदालत ने 17 जनवरी 2024 को डीएम एस. राजलिंगम को

व्यासजी के तहखाने का रिसीवर नियुक्त किया था। 31 जनवरी 2024 को अदालत ने आदेश दिया था कि चौक थाना क्षेत्र के सेटलमेंट प्लॉट-9130 स्थित भवन के दक्षिण तरफ के तहखाने की मूर्तियों की पूजा,

से कराएं। आदेश के लगभग 10 घंटे बाद ही व्यासजी के तहखाने में जाने के लिए रास्ता बनवा कर जिलाधिकारी ने पूजा-पाठ शुरू करा दी थी। जिला जज की अदालत के आदेश के खिलाफ मसाजिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी। गत 26 फरवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मसाजिद कमेटी की अपील खारिज कर दी।

राग-भोग और शृंगार पुजारी

#### संक्षिप्त समाचार

तस्करी कर लायी जा रही 74 अदद शराब की बोतले के साथ गिरफ्तार किया गया



क्यूँ न लिखूँ सच -यूसुफ

मुरादाबाद-श्रीमान पुलिस अधीक्षक रेलवे मुरादाबाद श्री आशुतोष शुक्ला द्वारा अपराध व अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्रीमान पुलिस उपाधीक्षक रेलवे मुरादाबाद के निकट पर्यवेक्षण व प्रभारी निरीक्षक श्री राजन शर्मा थाना जीआरपी मुरादाबाद के नेतृत्व में दिनांक 26.02.2024 को उ0नि0 श्री श्याम बाबू मय उ0नि0 दीपचंद मय टीम के चैकिंग के दौरान 03 नफर अभियुक्तगण 1- राजा बाबू पुत्र पंकज सिंह निवासी ग्राम बांसघाट थाना चकिया जिला मोतीहारी, बिहार उम्र 20 वर्ष 2- अनिल कुमार पुत्र जुगेन्द्र पण्डित निवासी ग्राम पट्टी जसौली, थाना कुटुआ जिला पूर्वी चम्पारण मोतीहारी, बिहार उम्र 24 वर्ष 3- दीपक कुमार पुत्र मुन्ना चौधरी निवासी ग्राम खरगी कुआ थाना चिकया जिला मोतीहारी, बिहार उम्र 20 वर्ष को रेलवे स्टेशन मुरादाबाद पर हरियाणा से तस्करी कर लायी जा रही 74 अदद शराब की बोतले रॉयल स्टैग व ब्लण्डर प्राइड व रेड लेवल हरियाणा मार्का के साथ गिरफ्तार किया गया। जिनकी अनुमानित कीमत करीब 82,000 रुपये है। अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0 33/2024 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम थाना जीआरपी मुरादाबाद गिरफ्तार अभियुक्त 1- राजा बाबू पुत्र पंकज सिंह निवासी ग्राम बासघाट थाना चिकया जिला मोतीहारी, बिहार उम्र 20 वर्ष 2- अनिल कुमार पुत्र जुगेन्द्र पण्डित निवासी ग्राम पट्टी जसौली, थाना कुटुआ जिला पूर्वी चम्पारण मोतीहारी, बिहार उम्र 24 वर्ष 3- दीपक कुमार पुत्र मुन्ना चौधरी निवासी ग्राम खरगी कुआं थाना चिकया जिला मोतीहारी, बिहार उम्र 20

#### ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज के बैडमिंटन विधा में सोमेश लामा का चयन

क्यूँ न लिखूँ सच

सूरजपुर- चंडीगढ़ के राष्ट्रीय स्तर प्रतियोगिता करेंगे राज्य का प्रतिनिधित्व सिविल सेवा कर्मचारियों के लिए प्रतिवर्ष आयोजित



की जाने वाली प्रतियोगिता आल इंडिया सिविल सर्विसेज 2023-24 में विभिन्न खेलों के दल गठन हेतु चयन प्रिक्रया रायपुर के विवेकानंद स्टेडियम कोटा में खेल एवं युवक कल्याण विभाग के द्वारा आयोजित की गई। राज्य स्तरीय चयन प्रतियोगिता में सरगुजा संभाग के सूरजपुर जिले में पदस्थ व्यायाम शिक्षक श्री सोमेश लामा एवं अंबिकापुर खेल परिसर में पदस्थ आनंद धर दीवान का

चयन बैडमिंटन खेल विधा में छत्तीसगढ़ की टीम में किया गया। दोनो चयनित खिलाड़ी 3 मार्च से चंडीगढ़ में आयोजित राष्ट्रीय स्तर आल इंडिया सिविल सर्विसेज प्रतियोगिता में राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। इससे पूर्व भी सोमेश लामा का चयन राष्ट्रीय स्तर पर हो चुका है। उनके चयन पर खेल प्रेमियों, स्कूल शिक्षा विभाग एवं आदिवासी विकास विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों ने दी अपने शुभकामनाएं।

#### 10 मार्च को राज्य सेवा प्राधिकरण की सहायक ग्रेड-3 एवं भृत्य के पदों के लिए लिखित परीक्षा

क्यूँ न लिखूँ सच

सूरजपुर-सूरजपुर-छत्तीसगढ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के द्वारा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं अधीनस्थ स्थापनाओं के लिए विभिन्न रिक्त पदों पर की जा रही भर्ती के अनुऋम में सहायक ग्रेड-3, आदेशिका लेखक, कम्प्यूटर आपरेटर एवं भृत्य पद हेतु प्रारंभिक लिखित परीक्षा 10 मार्च 2024 को बिलासपुर के विभिन्न स्कूलों में दो पालियों

क्र	कार्यक्रम स्थल का नाम	दिनांक	समय
1.	शा. महाविद्यालय ओड़गी	28.02.2024	प्रातः 11.00 बर्ज
2.	ओडिटोरियम सूरजपुर	29.02.2024	प्रातः 11.00 बजे
3.	शा. महाविद्यालय रामानुजनगर	01.03.2024	प्रातः 11.00 बजे
4.	शा. महाविद्यालय प्रेमनगर	01.03.2024	दोपहर 2.00 बजे
5.	शा. महाविद्यालय भैयाथान	02.03.2024	प्रातः 11.00 बजे
6.	शा. महाविद्यालय प्रतापपुर	02.03.2024	दोपहर 2.00 बजे

के सदस्य सचिव एवं चयन सहायक ग्रेड-3, आदेशिका परक्षा के सबध मे आवश्यक समिति के अध्यक्ष श्री आनंद लेखक, कम्प्यूटर आपरेटर एवं सूचना, प्रवेश पत्र, अभ्यर्थियों में आयोजित होगी। प्राधिकरण प्रकाश वारियाल ने बताया कि भृत्य पद हेतु प्रारंभिक लिखित की सूची इत्यादि छत्तीसगढ़

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण वेबसाईट cgslsa.gov.in पर अपलोड की गई है, जहां से अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र प्रिंट प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही 17 फरवरी को अनुवादक एवं वाहन चालक के पद हेतु आयोजित लिखित परीक्षा के भी परिणाम घोषित करते हुए मेरिट लिस्ट भी वेबसाईट पर अपलोड कर दी गई है। अभ्यर्थी अधिक जानकारी छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाईट पर प्राप्त कर सकते हैं।

# Do you also have allergy Give a new look to the problems? If these house by using old problems occur again things, make beautiful and again, be alert. decorations in this way

Allergies are a normal reaction of the body to substances commonly present in the environment. Allergic reactions can be caused by many other factors such as changes in weather, pollen, pet dander or even food. Anyone can have the problem of allergy to any substance, its symptoms



can be cured easily, but if you have frequent allergies then you should definitely take advice from an expert in this regard. It important identify the symptoms of allergy and its factors so adequate measures can be taken to prevent it. Health experts explain that when we have any type of allergy, the immune system produces

antibodies. This is why the immune system's response to allergen exposure can cause inflammation of the skin, sinuses, airways, or digestive system. The severity of allergy varies from person to person, in some situations there is a risk of it taking a serious form, which should be treated appropriately in time. Let us know with the help of which symptoms can be identified whether you too are suffering from allergy problem? Problem of runny nose or frequent blocked nose - If you go out for a walk and within a short time you start experiencing runny nose or nasal congestion. If there is a problem then it could be a problem of allergic rhinitis. This is a reaction to tiny particles in the air you breathe. Allergies caused by mold spores, pollens, detergents and cleansers cause runny or blocked nose. The problem of running nose is not considered a serious sign, but if you keep having such reactions often, then it becomes necessary to identify its factors and take measures to prevent them. Frequent Sneezing – Sneezing once or twice is normal, but if you are sneezing repeatedly then it can be an early sign of a serious allergy. Some people also have problem of sneezing due to food. It is also considered to be a problem caused by sinus. If you keep having such reactions more often and repeatedly, then it becomes necessary to get timely treatment. Symptoms visible in the eyes - The problem of pain, itching, redness or stinging in the eyes can be due to many reasons. In most cases, this is known as an allergic reaction. Itching or redness in the eyes due to sunlight, dust or harmful substances is also a sign of an allergic reaction. A reaction to pollen may occur in the spring. It is important to pay serious attention to these eye symptoms in time because there can be a risk of damage to the internal muscles and micro nerves due to itching and rubbing of the eyes. Symptoms visible on the skin - In case of allergy, Its symptoms appear more clearly. It may cause a red, itchy rash on the skin. There can be many reasons for this type of allergic reaction such as allergy to medicines or chemicals or elements present in the environment. Allergy may cause rashes, itching, pain or blisters on the skin. It is important to pay serious attention to these skin reactions and continue to take precautions.

If decorative things are decorated incorrectly, the house looks small and stuffy. In such a situation, you can give a beautiful look to your house even with small things. We spend most of our time at home, hence the decoration of the house should be such that it gives us comfort



and relaxation. For this change is necessary. Sometimes even small decorative items make the house or your room beautiful. You can recycle old things and use them in decoration. Some such new trends of decoration give a luxurious and classy look to your house. Your thoughts everywhere - To fill the house with positive energy, you can get motivational thoughts written on the walls or put them in the form of pictures. You can also get positive thoughts written on cushion covers or table cloth. To give a new look, you can paint a part of the wall of the house like a blackboard and write new ideas every day. Whenever a guest comes to your house, he will definitely fall in love with these ideas and will praise you. 3D Painting - Nowadays, there is a trend of 3D painting. You can apply 3D printing to lamps, kitchen accessories, artwork and wall features. These paintings give the feel of a different world. Jute carpets - Nowadays the trend of laying jute carpets is going on very fast. You can spread it in the living room or other rooms. These rugs are very durable and strong. Jute rug is a bit trendy but also gives a classic look to the home. Metal items - By mixing many metals, you can give a beautiful look to the interior, like - from brass candlestick to silver leaf coffee table, metal vase, in which you can plant a small plant and keep it in the living room. You can also decorate with metal fittings and chain pendants. A statue made of metal can be hung on a chain. Wooden Furniture-Wooden furniture makes the house attractive, such as stylish chairs and beautifully designed dining tables, sofas and unique beds. Carpet in the bathroom-You can give a modern look to the decor of your house by laying carpet in the bathroom. When you go to the bathroom in the morning, the soft and beautiful design touch on your feet will thrill your mind and your mind will remain happy the whole day. A bathroom with carpet will give a classy look to your house. Decorate the house with paper - You can decorate the house by making items from old paper. For example, you can make pen stands, wall hangings, baskets, bags from colored paper. These beautiful items will enhance the decor of your home. You can also include Moroccan design-Jellige tiles in your home decor. This trend uses small, colorful tiles. They are used in floors, walls and furniture.

# If there is too much chilli in food, then adopt these methods, the taste will improve.

Indian food is quite famous all over the world. People from distant countries come and eat the food here. This is also because the most delicious food is available in India. People here like

to eat spicy and spicy food in their happens that in order to prepare accidentally add more chillies. If then its spiciness does not cause any is added to the food then it increases much red chilli, people like to throw problem happens to you too often, ways to reduce this sharpness. You some things. Mix tomato paste in mistake there is too much red chilli situation, you can use tomatoes to heat light oil in a pan and fry the it is roasted properly, add the taste of chilli. Desi Ghee- Desi such a situation, if there is too much can improve its taste by adding desi reduced with desi ghee. Cream: If every Indian house, you will situation, if your vegetable has to it and cook it lightly. This will vegetable. You can remove the



daily meals, but many times it more spicy food, people green chillies are added in excess problem. But if too much red chilli the difficulty. After adding too away that food. If this kind of then we are going to tell you some can reduce this sharpness by using the vegetable - sometimes by in the vegetable. In such a immediately. For this you just have tomato paste properly in it. When vegetables to it. This will reduce Ghee is found in every house. In red chilli in your vegetable then you ghee. The spiciness of chilli will be you keep cream in the fridge of definitely find it. In such a become too spicy, then add cream reduce the spiciness of the sharpness by adding three to four

spoons of flour to vegetables. Even if there is too much water in the vegetable, you can correct it by adding flour.

# These stars charge huge These Bollywood actresses fees for private programs, started acting from South, names from Katrina to today they are the top Shahrukh are in the list actresses of the industry.

Film stars try their best to entertain people with their acting. At the same time, in the last few trend of inviting Bollywood celebrities for private years, a functions has also been seen. From Shahrukh Khan to Katrina Kaif, celebrities are often seen gracing the events. These celebs are very short of time, hence these stars charge huge fees attending any private party. Let us know which charge how much for private events. Katrina Kaif-Bollywood actress Katrina Kaif is one of the most beautiful actresses Bollywood. His fan following is very high. Along with acting, he is a l s o very for his

dancing. She won people's hearts by dancing brilliantly in songs like Sheela Ki Jawaani, Chikni Chameli, Kamli. Katrina charges huge amount for performing on stage in private programs. According to media reports, his fee is Rs 3 crore 50 lakh. Shahrukh Khan-Shahrukh Khan is also called the King of Bollywood. Actors rule people's hearts with their films. Apart from films, King Khan also performs in private events. According to media reports, his fee for such functions is Rs 3 crore. Akshay Kumar-Akshay Kumar, popularly known as Khiladi, is one of the busiest actors in the Hindi film industry. He works in many films a year. Despite this, he also takes out time to perform in private events. If reports are to be believed, he charges a fee of Rs 2 crore 50 lakh for this type of event. Hrithik Roshan-Handsome hunk Hrithik Roshan is one of the most talented persons in the Hindi film industry. Along with acting, he also rules the hearts of people with his dance. He is not behind other stars in charging huge fees for private events. According to media reports, he charges a fee of Rs 2 crore 50 lakh for dancing in a birthday party, wedding or any private function.

In recent times, many films of South Cinema have performed brilliantly in the Hindi belt. In the coming days, many top Bollywood actresses are going to make their debut in South films. At the same time, there are many top actresses of the industry who started their acting career from South films but today they are counted among the successful actresses of Bollywood.



Let us tell you about these actresses. The first name in this list is that of Bollywood's famous actress Deepika Padukone. Deepika started her career with the 2006 film 'Aishwarya'. After this, she was seen in 'Om Shanti Om' with Shahrukh Khan in the year 2007. Currently, Deepika is in the news for her recently released film 'Fighter'. Deepika is in the lead role with Hrithik Roshan in the film. In the film, he played the role of a fighter pilot. Actress Kriti Sanon also started her career in South cinema. She started her film career in 2004 with 'Nenokkadeen' opposite South superstar Mahesh Babu. Recently, 10 years of this film's release also completed. This film was directed by director Sukumar. Currently, Kriti is in the news for her recent release 'Teri Baton Mein Aise Uljha Jiya'. Shahid Kapoor is in the lead role along with Kriti Sanon in the film. Bollywood's hot sensation Disha Patani also started her acting career with South films. Disha started her career in 2015 with the Telugu film 'Loafer'. Varun Tej was in the lead role with Disha in this film. After this Disha 'M. S. Made his Bollywood debut in the year 2016 with 'Dhoni: The Untold Story'. Currently, Disha is in the news for her upcoming film 'Yodha', in which Siddharth Malhotra and South actress Raashi Khanna are in the lead roles. Actress Yami Gautam, who is making headlines with the film 'Article 370', also started her career in South cinema. Was. Yami started her career with the Kannada film 'Ullas Utsaha'. After this, Yami made her Bollywood debut in the year 2012 with Sujit Sircar's film 'Vicky Donor'. Apart from this, the industry's famous actresses Aishwarya Rai Bachchan and Priyanka Chopra, who have ruled the hearts of the audience, also started their careers from South Cinema. Was done. Aishwarya entered the world of acting with the film 'Iruvar', in which actor Mohanlal played the lead role. This film was directed by Mani Ratnam. Whereas, Priyanka Chopra made her acting debut in the year 2002 with the film 'Thamijaan'. Superstar Vijay played the lead role with her in this film.

# Janhvi Kapoor will do double blast, will show her acting skills in South as well as Bollywood.

Janhvi Kapoor is making every possible effort to dominate the big screen. The actress is busy winning the hearts of the audience by playing different characters. Janhvi, who has created

the magic of her acting from the silver South films as well. The actress will be in the coming days. Apart from this, pipeline. Let's take a look at the list of Johar recently announced the upcoming Dhawan and Janhvi Kapoor. In this, and Jhanvi Kapoor will play Tulsi attractive and now everyone's eyes are Varun Dhawan have been seen together seen in the film 'Ulj' being directed by of the film had announced this last year. movie produced by Junglee Pictures also 'Mr. and Mrs. Mahi' starring Janhvi long time regarding its release. Directed the life of former Indian cricket captain was announced by producer Karan 2022. The film marks the second horror thriller 'Roohi'. Janhvi Kapoor 'Devraa'. In this film, the actress will be



screen to OTT, is soon coming to show her magic in seen sharing the screen with South superstar Jr NTR many Bollywood films are also included in Haseena's Janhvi Kapoor's upcoming films - Filmmaker Karan film 'Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari' with Varun Varun Dhawan will play the role of Sunny Sanskari Kumari. The audience has found the title of the film fixed on its teaser. It is known that Janhvi Kapoor and before in the film 'Bawal'. Janhvi Kapoor will soon be National Award winner Sudhanshu Saria. The makers 'Ulj' is a thriller film. Apart from Janhvi Kapoor, this stars Gulshan Devaiah and Roshan Mathew. The film Kapoor and Rajkumar Rao has been in the news for a by Sharan Sharma, the film is a sports drama based on Mahendra Singh Dhoni. The film 'Mr. & Mrs. Mahie' Johar in November 2021, and shooting began in May collaboration of Janhvi and Rajkumar after the 2021 will be making her Telugu cinema debut with the film seen in the lead role with South superstar Jr NTR. Saif

Ali Khan is playing the role of villain in the film. The film 'Devra' was scheduled to hit the theaters on April 5, but later its release was extended to October 10. The story of 'Devra' has been written by Koratala Siva and he has also directed it. Janhvi Kapoor will share the screen with Ram Charan in 'RC 16'. Recently, filmmaker and Janhvi's father Boney Kapoor put an end to all the speculations and confirmed that Janhvi has signed her second Telugu project. She will soon be seen opposite Ram Charan in his upcoming project with Buchi Babu Sana.